

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 43] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 25—अक्टूबर 31, 2014 (दफ्तरिद 3, 1936)

---

No. 43] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 25—OCTOBER 31, 2014 (KARTIKA 3, 1936)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिस से कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित  
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by  
the Ministry of Defence]

---

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2014

सेना शाखा

सं. 239, दिनांक 1 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति उनके नामों के सम्मुख दी गई तिथि से करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान से मूल मेजर के रैंक में

वी-631एच कप्तान चंदन सिंह

आर वी सी

23.02.2014

दीपक नारंग

अवर सचिव

## सेना—विभाग

संख्या 240, दिनांक 7 अक्टूबर 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं:—

## नियमित सेना

## इन्फैंट्री

## सिख रेजिमेन्ट

## सूबेदार मेजर के रैंक में

|                                                                                    |                                    |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| सूबेदार बचित्तर सिंह                                                               | (जे सी 499423एफ)                   | 01 जून 14    |
|                                                                                    | सूबेदार के रैंक में                |              |
| नायब सूबेदार भूपिन्दरपाल सिंह                                                      | (जे सी 500340एल)                   | 27 मार्च 14  |
| सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 फरवरी 14       |                                    |              |
| नायब सूबेदार मनजीत सिंह                                                            | (जे सी 500314के)                   | 01 मार्च 14  |
| नायब सूबेदार जगतार सिंह                                                            | (जे सी 500020डब्ल्यू)              | 01 मई 14     |
| नायब सूबेदार गुरदयाल सिंह                                                          | (जे सी 500100एन)                   | 26 मई 14     |
| सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 14          |                                    |              |
| नायब सूबेदार चरत सिंह                                                              | (जे सी 500323एल)                   | 24 मई 14     |
| सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 14          |                                    |              |
| नायब सूबेदार लखविन्दर सिंह                                                         | (जे सी 500325डब्ल्यू)              | 01 मई 14     |
| नायब सूबेदार सुखपाल सिंह                                                           | (जे सी 500457के)                   | 01 मई 14     |
| नायब सूबेदार नच्छतर सिंह                                                           | (जे सी 500486वाई)                  | 01 मई 14     |
| नायब सूबेदार जरनैल सिंह                                                            | (जे सी 500487एफ)                   | 01 मई 14     |
| नायब सूबेदार सतनाम सिंह                                                            | (जे सी 500488के)                   | 01 मई 14     |
| नायब सूबेदार हरजीत सिंह                                                            | (जे सी 500547एल)                   | 01 मई 14     |
| नायब सूबेदार मलकीत सिंह                                                            | (जे सी 500127एल)                   | 05 जून 14    |
| सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 14         |                                    |              |
| नायब सूबेदार रघुवीर सिंह                                                           | (जे सी 500363एम)                   | 01 जून 14    |
| नायब सूबेदार सतनाम सिंह                                                            | (जे सी 500469वाई)                  | 01 जून 14    |
|                                                                                    | नायब सूबेदार के रैंक में           |              |
| हवलदार अवतार सिंह                                                                  | (3393149एम अब जे सी 500798पी)      | 25 अप्रैल 14 |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 18 मार्च 14  |                                    |              |
| हवलदार राजिन्दर प्रताप सिंह                                                        | (3393478एच अब जे सी 500799एक्स)    | 13 जून 14    |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 14 |                                    |              |
| हवलदार दलजीत सिंह, सेना मेडल                                                       | (3393548डब्ल्यू अब जे सी 500800एफ) | 13 मई 14     |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अप्रैल 14 |                                    |              |
| हवलदार जोगिन्दर सिंह                                                               | (3393601डब्ल्यू अब जे सी 500801के) | 24 मई 14     |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल 14 |                                    |              |

|                                                                       |                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| हवलदार अमरजीत सिंह                                                    | (3392474ए अब जे सी 500802एम)         | 01 मई 14  |
| हवलदार सुरिन्द्र सिंह                                                 | (3391998पी अब जे सी 500803पी)        | 01 मई 14  |
| हवलदार गुरनाम सिंह                                                    | (3392955एम अब जे सी 500804एक्स)      | 11 जून 14 |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता | 01 मई 14                             |           |
| हवलदार लखवीर सिंह                                                     | (3392565के अब जे सी 500805ए)         | 01 मई 14  |
| हवलदार राजविंदर सिंह                                                  | (3392667ए अब जे सी 500806एच)         | 01 मई 14  |
| हवलदार बुटा सिंह                                                      | (3393213वाई अब जे सी 500807एल)       | 01 मई 14  |
| हवलदार दिलबाग सिंह                                                    | (3393244वाई अब जे सी 500808एन)       | 01 मई 14  |
| हवलदार हरजिन्दर सिंह                                                  | (3393428एक्स अब जे सी 500809डब्ल्यू) | 01 मई 14  |
| हवलदार गुरमेल सिंह                                                    | (3394988डब्ल्यू अब जे सी 500810एल)   | 05 जून 14 |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता | 01 जून 14                            |           |
| हवलदार बलजीत सिंह                                                     | (3392609डब्ल्यू अब जे सी 500811एन)   | 02 जून 14 |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता | 01 जून 14                            |           |
| हवलदार दलविंदर सिंह                                                   | (3392938एम अब जे सी 500812डब्ल्यू)   | 01 जून 14 |
| हवलदार हरविंदर सिंह                                                   | (3394908एन अब जे सी 500813वाई)       | 21 जून 14 |
| नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता | 01 जून 14                            |           |

#### पैराशूट रेजिमेंट

#### नायब सुबेदार के रैंक में

|                                                                     |                                        |                 |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| हवलदार राजेश कुमार                                                  | (न 13621610एक्स अब जेसी-413792एक्स)    | 01 जुलाई 2013   |
| हवलदार चाबुकेशवर अनिल कान्हु                                        | (न 13620374पी अब जेसी-413791पी)        | 19 सितम्बर      |
| हवलदार खेडकर चन्द्राकांत निवृत्ती                                   | (न 13619236एफ अब जेसी-413794एच)        | 19 सितम्बर      |
| हवलदार देवेन्द्र सिंह                                               | (न 13620134एक्स अब जेसी-413789एक्स)    | 06 सितम्बर 2013 |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता | 01 सितम्बर 2013                        |                 |
| हवलदार राज रौसी                                                     | (न 13619955ए अब जेसी-413793ए)          | 01 अक्टूबर 2013 |
| हवलदार सतवीर सिंह                                                   | (न 2483672एच अब जेसी-413795एल)         | 01 अक्टूबर 2013 |
| हवलदार रघुवीर सिंह                                                  | (न 4073587एल अब जेसी-413796एन)         | 01 अक्टूबर 2013 |
| हवलदार हरिश सिंह बोरा                                               | (न 13618528एक्स अब जेसी-413797डब्ल्यू) | 28 नवम्बर 2013  |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता | 01 नवम्बर 2013                         |                 |
| हवलदार संजीव कुमार                                                  | (न 13621542पी अब जेसी-413798वाई)       | 14 दिसम्बर 2013 |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता | 01 मार्च 2013                          |                 |
| हवलदार हरपाल सिंह                                                   | (न 1490305एच अब जेसी-413805के)         | 08 जनवरी 2014   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता | 01 दिसम्बर 2013                        |                 |
| हवलदार रविंद्रा कुमार खरेल                                          | (न 13618725ए अब जेसी-413800एल)         | 01 जनवरी 2014   |

|                                                                                    |                                        |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|
| हवलदार शिवराज सिंह                                                                 | (न 13618956डब्ल्यु अब जेसी-413801एन)   | 01 जनवरी 2014  |
| हवलदार उमेद सिंह                                                                   | (न 13618864के अब जेसी-413802डब्ल्यु)   | 01 जनवरी 2014  |
| हवलदार सुनील कुमार                                                                 | (न 13618973डब्ल्यु अब जेसी-413803वाई ) | 01 जनवरी 2014  |
| हवलदार नारायण सिंह थापा                                                            | (न 13618934एक्स अब जेसी-413804एफ)      | 01 जनवरी 2014  |
| हवलदार गनेश दत्त                                                                   | (न 1487199के अब जेसी-413745ए)          | 05 अप्रैल 2013 |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 जनवरी 2013   |                                        |                |
| हवलदार तेज सिंह सैधव                                                               | (न 15461247एक्स अब जेसी-413746एच)      | 05 अप्रैल 2013 |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 जनवरी 2013   |                                        |                |
| हवलदार राकेश कुमार                                                                 | (न 9095719एच अब जेसी-413752डब्ल्यु)    | 01 मई 2013     |
| हवलदार भूपाल सिंह                                                                  | (न 13618718के अब जेसी-413734एन)        | 15 फरवरी 2013  |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013   |                                        |                |
| हवलदार पृथ्वीराज सिंह राठौर                                                        | (न 13618782एफ अब जेसी-413733एल)        | 07 फरवरी 2013  |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013   |                                        |                |
| हवलदार सत्यवीर यादव                                                                | (न 13619105डब्ल्यु अब जेसी-413740एफ)   | 21 फरवरी 2013  |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013   |                                        |                |
| हवलदार सचिन कुमार                                                                  | (न 13621156एच अब जेसी-413736वाई)       | 25 फरवरी 2013  |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 सितम्बर 2012 |                                        |                |
| हवलदार बलीराम थापा                                                                 | (न 13620934डब्ल्यु अब जेसी-413750एल)   | 14 अप्रैल 2013 |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013   |                                        |                |
| हवलदार सशी ओम                                                                      | (न 13621404एन अब जेसी-413741के)        | 05 मार्च 2013  |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013   |                                        |                |
| हवलदार विवेकानंद बी पाटिल                                                          | (न 13621444पी अब जेसी-413744एक्स)      | 01 अप्रैल 2013 |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013   |                                        |                |
| हवलदार सुनील कुमार                                                                 | (न 13621409एम अब जेसी-413751एन)        | 07 अप्रैल 2013 |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013   |                                        |                |
| हवलदार इंद्र सिंह राठौर                                                            | (न 13619824पी अब जेसी-413732एच)        | 10 जनवरी 2013  |
| हवलदार कुलवंत सिंह                                                                 | (न 13619938पी अब जेसी-413749डब्ल्यु)   | 01 अप्रैल 2013 |
| हवलदार राजपाल सिंह जादोन                                                           | (न 13620035पी अब जेसी-413743पी)        | 01 अप्रैल 2013 |
| हवलदार कर्मचंद ठाकुर, एस एम                                                        | (न 3995986पी अब जेसी-413742एम)         | 07 मार्च 2013  |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जनवरी 2013   |                                        |                |

|                                                                                  |                                      |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| हवलदार डी पौल राज                                                                | (न 2595660पी अब जेसी-413739एम)       | 26 दिसम्बर 2012 |
| हवलदार चंद्र पाल                                                                 | (न 3185023एन अब जेसी-413737एफ)       | 28 फरवरी 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2013 |                                      |                 |
| हवलदार जगदीश सिंह                                                                | (न 4074030एल अब जेसी-413747एल)       | 24 जनवरी 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2013 |                                      |                 |
| हवलदार निंगप्पा गंगान्वर                                                         | (न 2789142एच अब जेसी-413748एन)       | 01 अप्रैल 2013  |
| नायब सुबेदार(लिपिक) के रैंक में                                                  |                                      |                 |
| हवलदार(लिपिक) जबर सिंह राना                                                      | (न 13620342एम अब जेसी-413725डब्ल्यू) | 25 फरवरी 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 फरवरी 2013 |                                      |                 |
| हवलदार(लिपिक) राजेश कुमार शर्मा                                                  | (न 13619968एक्स अब जेसी-413738के)    | 01 मार्च 2013   |
| हवलदार राम रतन लाखरे                                                             | (न 13619439वाई अब जेसी-413755के)     | 01 जून 2013     |
| हवलदार वीरपाल सिंह                                                               | (न 13618794डब्ल्यू अब जेसी-413756एम) | 01 जून 2013     |
| हवलदार खस्ती बल्लभ                                                               | (न 13618808एल अब जेसी-413757पी)      | 01 जून 2013     |
| हवलदार दिपेंद्रा सिंह                                                            | (न 13621565डब्ल्यू अब जेसी-413754एफ) | 28 मई 2013      |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 |                                      |                 |
| हवलदार बंशी नाथ                                                                  | (न 13619120एल अब जेसी-413758एल)      | 01 अप्रैल 2013  |
| हवलदार सुखपाल सिंह                                                               | (न 13619865वाई अब जेसी-413753वाई)    | 01 अप्रैल 2013  |
| हवलदार परमिन्द्र सिंह                                                            | (न 13620073एल अब जेसी-413760पी)      | 15 जून 2013     |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013   |                                      |                 |
| हवलदार अवतार सिंह                                                                | (न 13620104ए अब जेसी-413761एक्स)     | 21 जून 2013     |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013   |                                      |                 |
| हवलदार सुनील कुमार धामी                                                          | (न 13618874एन अब जेसी-413763एच)      | 01 जुलाई 2013   |
| हवलदार प्रेम प्रकाश                                                              | (न 4184749ए अब जेसी-413766 डब्ल्यू)  | 01 जुलाई 2013   |
| हवलदार अम्मे रेडडी श्रीनिवासा रेडडी                                              | (न 2596214ए अब जेसी-413780एच)        | 12 अगस्त 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च 2013 |                                      |                 |
| हवलदार सोमप्पा केदारी                                                            | (न 2790086एफ अब जेसी-413784वाई)      | 26 अगस्त 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च 2013 |                                      |                 |
| हवलदार रामा मुर्ती आर                                                            | (न 13620023ए अब जेसी-413779एन)       | 18 जुलाई 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च 2013 |                                      |                 |
| हवलदार पुलाप्पा धनंजया राव                                                       | (न 2595574के अब जेसी-413775एक्स)     | 13 जुलाई 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 मार्च 2013 |                                      |                 |

|                                                                                    |                                    |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| हवलदार रुपेंद्रा कुमार वर्मा                                                       | (न 15116469एफ अब जेसी-413769के)    | 08 जुलाई 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013  |                                    |                 |
| हवलदार शिवराज सिंह                                                                 | (न 13618577ए अब जेसी-413768एफ)     | 08 जुलाई 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013  |                                    |                 |
| हवलदार पुरन सिंह                                                                   | (न 13618594ए अब जेसी-413781एल)     | 14 अगस्त 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013   |                                    |                 |
| हवलदार गोविन्द गिरी                                                                | (न 13618840ए अब जेसी-413782एन)     | 19 अगस्त 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जुलाई 2013   |                                    |                 |
| हवलदार गवाई राजेश निवृत्ती                                                         | (न 4563390के अब जेसी-413776ए)      | 01 मई 2013      |
| हवलदार बिर्जेन्द्र सिंह                                                            | (न 2789681वाई अब जेसी-413774पी)    | 12 जुलाई 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013     |                                    |                 |
| हवलदार अनुप कुमार पाल                                                              | (न 13619778एल अब जेसी-413773एम)    | 08 जुलाई 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013   |                                    |                 |
| हवलदार अप्रेश प्रशाद                                                               | (न 13619539एक्स अब जेसी-413767वाई) | 28 जून 2013     |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013      |                                    |                 |
| हवलदार तरल अनिल राम चन्द्र                                                         | (न 13619732एच अब जेसी-413772के)    | 01 जुलाई 2013   |
| हवलदार सरत कुमार पत्रो                                                             | (न 13620260के अब जेसी-413777एच)    | 01 जुलाई 2013   |
| हवलदार भगवान सिंह समंत                                                             | (न 13618866पी अब जेसी-413770वाई)   | 12 जुलाई 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जून 2013     |                                    |                 |
| हवलदार संजय कुमार                                                                  | (न 13619132ए अब जेसी-413790एम)     | 10 सितम्बर 2013 |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013 |                                    |                 |
| हवलदार सुशील कुमार                                                                 | (न 13619884के अब जेसी-413788पी)    | 03 सितम्बर 2013 |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013     |                                    |                 |
| हवलदार प्रशांत कुमार मिश्रा (न 13620117एक्स अब जेसी-413783डब्ल्यू)                 |                                    | 19 अगस्त 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013   |                                    |                 |
| हवलदार(लिपिक) दातार सिंह                                                           | (न 13620290एफ अब जेसी-413759ए)     | 27 मई 2013      |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013      |                                    |                 |
| हवलदार(लिपिक) राजेंद्रा मौर्या                                                     | (न 13620291के अब जेसी-413762ए)     | 01 जून 2013     |
| हवलदार(लिपिक) मोहम्मद रौफ                                                          | (न 13620293पी अब जेसी-413771एफ)    | 15 जुलाई 2013   |
| नायब सुबेदार के पद में वेतन और भत्तो पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013     |                                    |                 |

|                                                                     |                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|
| हवलदार(लिपिक) संजित बनिक                                            | (न 13620302एल अब जेसी-413764एल) | 06 जुलाई 2013 |
| नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता | 01 जुलाई 2013                   |               |
| हवलदार(लिपिक) सुरेंद्रा यादव                                        | (न 13620310के अब जेसी-413765एल) | 01 जुलाई 2013 |
| हवलदार(लिपिक) सुरेंद्रा सिंह                                        | (न 13620333एल अब जेसी-413778एल) | 01 अगस्त 2013 |

वी एन रावेन्द्रन  
अवर सचिव

-----  
थल सेना विभाग

सं० 241, तारीख 8 अक्टूबर 2014----राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

**नियमित सेना**

**रक्षा सुरक्षा कोर**

**स्थायी सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में**

|                 |                     |                     |                 |
|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| सूबेदार (जी डी) | हर्ष सिंह, एस एम    | (जे सी 212670 एक्स) | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार (जी डी) | सुभाष चन्द          | (जे सी 518973 एफ)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार (जी डी) | गुलजार अहमद         | (जे सी 578906 ए)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार (जी डी) | मिल्खा सिंह         | (जे सी 508502 ए)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार (जी डी) | चन्दर प्रकाश        | (जे सी 478787 ए)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार (जी डी) | दिवान राज           | (जे सी 448850 पी)   | 06 फरवरी 2014   |
| सूबेदार (जी डी) | श्याम सिंह राठौर    | (जे सी 840961 एल)   | 03 फरवरी 2014   |
| सूबेदार (जी डी) | निर्मल सिंह         | (जे सी 428141 वाई)  | 06 फरवरी 2014   |
| सूबेदार (जी डी) | रविन्द्रा नाथ पाटिल | (जे सी 841032 वाई)  | 06 फरवरी 2014   |
| सूबेदार (जी डी) | रोहतास सिंह         | (जे सी 468195 एच)   | 01 फरवरी 2014   |

**स्थायी सूबेदार (जी डी) के रैंक में**

|                      |                 |                        |                 |
|----------------------|-----------------|------------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | नवल किशोर सिंह  | (जे सी 559641एम)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रमी चन्द        | (जे सी 420149 डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बच्चन सिंह      | (जे सी 418355एफ)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | नारायण दाश      | (जे सी 842165एफ)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रूमालू राम      | (जे सी 842172एक्स)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रतन सिंह        | (जे सी 238168ए)        | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राजा किशोर साहू | (जे सी 558722ए)        | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                      |                       |                 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | कूलदीप चन्द शुक्ला   | (जे सी 429106एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | शरना गौड़ा बिरादा    | (जे सी 842198एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गुरदीप सिंह          | (जे सी 508678एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुखदेव सिंह          | (जे सी 508411डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कृष्णा प्रसाद गुरुंग | (जे सी 607599वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | भगवान सिंह           | (जे सी 810571एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जनार्दन मिश्रा       | (जे सी 299056डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | संग शिरिंग लेपचा     | (जे सी 634556एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बोम बहादुर खरका      | (जे सी 549008वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बलदेव राज            | (जे सी 488966एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मुकुन्द सिंह         | (जे सी 298346एफ)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | चन्द सिंह राजपूत     | (जे सी 268493पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | लाभ सिंह             | (जे सी 842269एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रबी नाथ प्रसाद       | (जे सी 221172एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कालू राम बिश्नोई     | (जे सी 375219पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | प्रकाश चन्द          | (जे सी 529669एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | संतोख सिंह           | (जे सी 266999पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बदाम सिंह            | (जे सी 469691डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | लॉके उधव महताजी      | (जे सी 842334एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | खड्से राजेन्द्रा     | (जे सी 842335ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बरदाने लक्ष्मण मधु   | (जे सी 842337एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बनी सिंह             | (जे सी 569789वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कुलदीप सिंह चौहान    | (जे सी 520071एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | पूरन चन्द            | (जे सी 842355एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बख्तावर सिंह रावत    | (जे सी 418584एम )     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | विकास धडवाल          | (जे सी 239259डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | अमलेश तिवारी         | (जे सी 642577वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बासु देव             | (जे सी 663080पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                         |                       |                 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | विजय कुमार तिवारी       | (जे सी 842409के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कृष्णा लाल गुरुंग       | (जे सी 370130वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गजेन्द्रा सिंह तोमर     | (जे सी 758326एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | लेख राज                 | (जे सी 518356वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | डिमबेश्वर ककोटी         | (जे सी 548009पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | चरनजीत सिंह अस्सला      | (जे सी 592177एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | हरजीत सिंह              | (जे सी 428633एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | आर सी असोक कुमार        | (जे सी 438557डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | एल थंग खोलून कुकी       | (जे सी 548782एफ)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | नरिन्दर सिंह, एस एम     | (जे सी 412567डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | प्रमाथा कुमार बिश्वास   | (जे सी 240155के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बलवन्त सिंह             | (जे सी 270060डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | धनराज गुरुंग            | (जे सी 220359एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ज्योतिष चन्द्रा राय     | (जे सी 842053एफ)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | भूप सिंह                | (जे सी 237635ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | अरुन कोठे               | (जे सी 842463एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गाइकवाड़ भानूदास नारायण | (जे सी 842485डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सी रमेश कुमार           | (जे सी 842490 एफ)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सरोज राव                | (जे सी 842501एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | भानू गुरुंग             | (जे सी 842502एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | तेजेन्द्रा सिंह         | (जे सी 419427एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बिहारी राम              | (जे सी 842503एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कृष्णा बहादुर राणा      | (जे सी 580001डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दिलावर सिंह             | (जे सी 842517डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुरेश बहादुर सिंह       | (जे सी 842518डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | परदीप सिंह              | (जे सी 842528ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मनी राम                 | (जे सी 240052एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रमेश के                 | (जे सी 842547एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | नरेन्द्र सिंह           | (जे सी 842559ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                    |                       |               |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | रोशन लाल           | (जे सी 842553वाई)     | 01 फरवरी 2014 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | हरदयालसिंह         | (जे सी 842580एच)      | 01 जनवरी 2014 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रनवीर सिंह         | (जे सी 842583डब्ल्यू) | 01 जनवरी 2014 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | एस देवाराज         | (जे सी 842593ए)       | 01 जनवरी 2014 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | लोकारे राम रतन     | (जे सी 842594एच)      | 08 जनवरी 2014 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | विजय सिंहयादव      | (जे सी 842596एन)      | 01 फरवरी 2014 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | अजीत सिंह          | (जे सी 842597डब्ल्यू) | 01 फरवरी 2014 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जगदीश              | (जे सी 842599एफ)      | 01 फरवरी 2014 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रणविजय प्रताप सिंह | (जे सी 842606वाई)     | 01 फरवरी 2014 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गोविन्द सिंह       | (जे सी 842609ए)       | 03 फरवरी 2014 |

**स्थाई सूबेदार मेजर / लिपिक (एस डी) के रैंक में**

|                         |                |                        |               |
|-------------------------|----------------|------------------------|---------------|
| सूबेदार / लिपिक (एस डी) | राज कुमार यादव | (जे सी 841966 डब्ल्यू) | 03 मार्च 2014 |
|-------------------------|----------------|------------------------|---------------|

**स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में**

|                      |                       |                        |                 |
|----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | माखन सिंह             | (जे सी 842156 ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | विरेन्द्रा कुमार सिंह | (जे सी 829207 के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मस्तान सिंह           | (जे सी 268498 एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मनोहरन एम वी          | (जे सी 842279 एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | चंचल सिंह             | (जे सी 266754 वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | देश राज               | (जे सी 420126 पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | वेद प्रकाश            | (जे सी 842324 एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जगत बहादुर गुरुंग     | (जे सी 617575एच)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बिश्व किरन श्रेष्ठा   | (जे सी 602658 डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गिरधारी लाल मारवारी   | (जे सी 403669एल)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | चंचल सिंह             | (जे सी 403632के)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जगदीश राई             | (जे सी 818475एन)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राजेन्दर सिंह         | (जे सी 842387डब्ल्यू)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | तेजा सिंह             | (जे सी 842388वाई)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | तेजेन्दर सिंह         | (जे सी 508547ए)        | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | प्रताप सिंह           | (जे सी 261165वाई)      | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                          |                       |                 |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | जय सिंह                  | (जे सी 489565एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सलीम पी एच               | (जे सी 458920डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ब्रम प्रकाश              | (जे सी 268290एल )     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | शिंदे भाऊ साहेब बाबू राव | (जे सी 842433ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दिनन के                  | (जे सी 263043एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | विजयपाल सिंह             | (जे सी 842454डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | तसदीक                    | (जे सी 350132एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राम लक्ष्मन थापा         | (जे सी 612312ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | खीम बहादुर थापा          | (जे सी 602726वाई )    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जगरूप सिंह               | (जे सी 726472ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुमेर सिंह इन्दा         | (जे सी 412793एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गंगा प्रसाद पाण्डेय      | (जे सी 248080ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | पुरुषोत्तम सिंह          | (जे सी 509126एफ)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | योगम्बर सिंह, एस एम      | (जे सी 412760एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | प्रहलाद राम मीना         | (जे सी 241772डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राई आनन्दम               | (जे सी 842468डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | अर्जुन सिंह              | (जे सी 842478ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दिगर देव                 | (जे सी 842486वाई )    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जुगराज सिंह              | (जे सी 508473डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | नाराईन सिंह              | (जे सी 449257एच )     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | तुलसी राम गुर्जर         | (जे सी 403088एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राम सिंह                 | (जे सी 842513एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सज्जन सिंह               | (जे सी 842514ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जगदीश सिंह खाती          | (जे सी 329152एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सोनम पलदान               | (जे सी 588270ए )      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जगतार सिंह               | (जे सी 580457पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सोर बीर सिंह             | (जे सी 529726एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुबाश चन्दर              | (जे सी 520812एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सोब सिंह राजपूत          | (जे सी 420054डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | परमोद कुमार शर्मा        | (जे सी 420790पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                 |                       |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | मधन चन्द, एस एम | (जे सी 539122एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बाबू राम        | (जे सी 593073वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ओंकार चन्द      | (जे सी 429807वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मोहम्मद यासीन   | (जे सी 756041एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | महावीर सिंह     | (जे सी 297484डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जीवन सिंह       | (जे सी 263155एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | विनोद कुमार पी  | (जे सी 269010वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ए अनुमप्पन      | (जे सी 308736ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |

#### स्थाई सूबेदार / लिपिक (एस डी) के रैंक में

|                            |                     |                       |                 |
|----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | मदन लाल तिवारी      | (जे सी 842377एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | राज बहादुर यादवा    | (जे सी 842379एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | एस आदी ब्रह्मानन्दम | (जे सी 842416ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | प्रेम सिंह          | (जे सी 842417एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | ओम प्रकाश सेमवाल    | (जे सी 842482एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | सुशील कुमार         | (जे सी 842484एन )     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | के थीयागराजन        | (जे सी 842508 एम)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | लवहाते शरद बाबन     | (जे सी 843317के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | सुरेश चन्द्रा       | (जे सी 842586के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | राज कुमार पटयाल     | (जे सी 842587एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | पाटील विलास गणपती   | (जे सी 842611एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | राधा मोहन शर्मा     | (जे सी 842612ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | अनिल कुमार          | (जे सी 842613एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | साहीब सिंह          | (जे सी 842616डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | रबीन्द्रा नाथ साहू  | (जे सी 842653के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | जोगिन्दर सिंह       | (जे सी 842654के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | जोगा सिंह चीमा      | (जे सी 842655पी)      | 01 मार्च 2014   |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | तीर्थ राज           | (जे सी 842656एक्स)    | 01 मार्च 2014   |
| नायब सूबेदार /लिपिक(एस डी) | प्रसन्ना कुमारन एन  | (जे सी 842670के)      | 01 मार्च 2014   |

**स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में**

|                |                    |                   |                 |
|----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| सूबेदार(जी डी) | सुखदेव सिंह        | (जे सी 841026 एल) | 01 सितम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | कुंज बिहारी सिंघा  | (जे सी 548253 पी) | 03 मार्च 2014   |
| सूबेदार(जी डी) | दीपक कुमार         | (जे सी 623224 के) | 01 मार्च 2014   |
| सूबेदार(जी डी) | कवाड़े दिलीप दत्ता | (जे सी 172733 के) | 01 मार्च 2014   |
| सूबेदार(जी डी) | सुरेन्द्रा सिंह    | (जे सी 528600 एफ) | 01 मार्च 2014   |

**स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में**

|                      |                          |                        |                 |
|----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | करतार सिंह               | (जे सी 238241 एन)      | 01 जून 2012     |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ऊमा शंकर सिंह            | (जे सी 841920 एन)      | 01 जनवरी 2013   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | इकबाल सिंह, एस एम        | (जे सी 499111 एल)      | 01 फरवरी 2013   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | विनोद कुमार वर्मा        | (जे सी 842009एक्स)     | 01 मई 2013      |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रणबीर सिंह               | (जे सी 842018 डब्ल्यू) | 01 जून 2013     |
| नायब सूबेदार (जी डी) | प्रसान्त कुमार बारीक     | (जे सी 842043एक्स)     | 01 जून 2013     |
| नायब सूबेदार (जी डी) | टोमी एन जे               | (जे सी 438629एच)       | 01 जुलाई 2013   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | परवीन कुमार कतल          | (जे सी 579773एफ)       | 01 अगस्त 2013   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | अत्तर सिंह               | (जे सी 239173एक्स)     | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | प्रकाश चन्द आजाद         | (जे सी 518547एन)       | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जाधव विष्णू त्रिम्बक     | (जे सी 842045एच)       | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गंगाधरन के               | (जे सी 842061वाई)      | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रघुबीर सिंह              | (जे सी 257433ए)        | 10 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कमला कान्त बाईलुंग       | (जे सी 266980डब्ल्यू)  | 01 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राज सिंह                 | (जे सी 579796एच)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुरेश चन्दर              | (जे सी 578930डब्ल्यू)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | महाबीर सिंह              | (जे सी 448364एक्स)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | महेन्द्रा प्रसाद चौरसिया | (जे सी 368510वाई)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | होसियार सिंह             | (जे सी 842191एच)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ओम प्रकाश                | (जे सी 529885एल)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रंजीत सरकार              | (जे सी 643146वाई)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ब्रजेन्द्रा सिंह चौहान   | (जे सी 842243एन)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | पंचा कनर                 | (जे सी 558610ए)        | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                        |                       |                 |
|----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | परषोतम लाल             | (जे सी 268396एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जोगिन्दर सिंह          | (जे सी 469759एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | पाण्डुआ राम जेराई      | (जे सी 558699एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सरस्वती प्रसाद         | (जे सी 842373डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | स्वरण सिंह             | (जे सी 842374वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गणेश सिंह              | (जे सी 538213ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | चन्द्रिका सिंह कुशवाहा | (जे सी 842380एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ऊमा कान्त राई          | (जे सी 842395पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | द्वारिका नाथ तिवारी    | (जे सी 842399एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | चन्द्रा मोहन सिंह      | (जे सी 761794वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सी अलगु                | (जे सी 842440डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सर्वेश सिंह            | (जे सी 225400एफ)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुख राम                | (जे सी 255435एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | लक्ष्मन सिंह           | (जे सी 538651एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मंडरूप सिंह            | (जे सी 842458एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | निम बिप्पा तेलमट्टी    | (जे सी 842465एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जमना दास               | (जे सी 842515एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | देव राज                | (जे सी 842552डब्ल्यू) | 28 फरवरी 2014   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सत्य देव सिंह          | (जे सी 842565एन)      | 27 फरवरी 2014   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रमेश सिंह              | (जे सी 842610पी)      | 01 फरवरी 2014   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | पुष्कर सिंह            | (जे सी 402493वाई)     | 01 मार्च 2014   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | भार्गवन पिल्ले         | (जे सी 298458एफ)      | 01 मार्च 2014   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | यश पाल                 | (जे सी 663791पी)      | 01 मार्च 2014   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | तरलोचन सिंह            | (जे सी 429868डब्ल्यू) | 01 मार्च 2014   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मनधीर सिंह             | (जे सी 412742ए)       | 01 मार्च 2014   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रवीन्द्रन सी के        | (जे सी 842617वाई)     | 01 मार्च 2014   |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दिलवर सिंह             | (जे सी 842622के)      | 01 मार्च 2014   |
| सूबेदार (जी डी)      | मन्ना राम महल्ला       | (जे सी- 257692 एच)    | 01 सितम्बर 2013 |
| सूबेदार (जी डी)      | मोहम्मद मुनीम पाशा     | (जे सी- 458356 एम)    | 01 अक्टूबर 2013 |

|                      |                      |                         |                 |
|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| सूबेदार (जी डी)      | गोबिन्द सिंह बोरा    | (जे सी- 841009 एल)      | 01 नवम्बर 2013  |
| सूबेदार (जी डी)      | रंजीत सिंह           | (जे सी- 171866 एन)      | 01 नवम्बर 2013  |
| सूबेदार (जी डी)      | मन बहादुर पूण        | (जे सी- 612125 एफ)      | 01 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार (जी डी)      | डिग्विजय सिंह, एस एम | (जे सी- 478647 एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार (जी डी)      | आँकार सिंह           | (जे सी- 578746 एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | लोडरिक पसकू जुजे     | (जे सी- 224519 वाई)     | 01 अक्टूबर 2012 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | लक्ष्मण सिंह         | (जे सी- 842008 पी)      | 01 मई 2013      |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | बलबीर सिंह           | (जे सी- 520138 वाई)     | 01 अगस्त 2013   |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | बक्षशीश सिंह         | (जे सी- 450171 डब्ल्यू) | 01 अगस्त 2013   |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | देव राज              | (जे सी- 578872 एक्स)    | 01 सितम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | द्वारका प्रसाद       | (जे सी- 237722 एन)      | 01 सितम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | रोमेश कुमार          | (जे सी- 428770 डब्ल्यू) | 01 सितम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | समुन्दर सिंह         | (जे सी- 237795 ए)       | 01 सितम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | मनबीर सिंह           | (जे सी- 263582 के)      | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | श्री रमण डुबे        | (जे सी- 258963 एफ)      | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | नागेश आर             | (जे सी- 419227 डब्ल्यू) | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | बल बहादुर छेत्री     | (जे सी- 842044 ए)       | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | राम प्रसाद छेत्री    | (जे सी- 842059 एच)      | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | नील कुमार            | (जे सी- 724216 एम)      | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | सुदामा प्रसाद        | (जे सी- 296453 के )     | 01 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | शिरवन कुमार पाण्डेय  | (जे सी- 373570 एक्स)    | 01 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | प्रीतम चन्द          | (जे सी- 238879 ए)       | 01 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | महावीर सिंह          | (जे सी- 469099 ए)       | 01 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बलदेव सिंह           | (जे सी- 419460 के)      | 01 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | मन बहादुर प्रधान     | (जे सी- 607500 एक्स)    | 01 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | अशोक कुमार सिंह      | (जे सी- 539425 एक्स)    | 01 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | ग्रीसन नायर          | (जे सी- 307310 एम)      | 01 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | जसपाल सिंह           | (जे सी- 529694 डब्ल्यू) | 01 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी)  | छेरिंग अंगचोक        | (जे सी- 588399 एल )     | 01 दिसम्बर 2013 |

|                     |                        |                         |                 |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार(जी डी) | सुरेन्द्रा नाथ पाण्डेय | (जे सी- 818898 एफ)      | 01 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | सोम नाथ                | (जे सी- 593086 डब्ल्यू) | 01 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | भरत सिंह               | (जे सी- 569537 एम)      | 01 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | रविन्द्रन एस           | (जे सी- 238995 एच)      | 01 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | सरु राम सैकिया         | (जे सी- 344957 एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | जयबीर सिंह             | (जे सी- 569366 एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | चन्द्रा शेकर भट्ट      | (जे सी- 694752 एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | रमेश चन्द              | (जे सी- 420349 एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | ऊगम सिंह               | (जे सी- 695196 वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | धरमबीर                 | (जे सी- 267825 एफ)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | झिरमल सिंह             | (जे सी- 270027 वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | करनाईल सिंह            | (जे सी- 508638 के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | राम लाल                | (जे सी- 428903 एफ)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | रमेश चन्द              | (जे सी- 498381 एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार(जी डी) | बज राम                 | (जे सी- 842556 एम)      | 01 जनवरी 2014   |
| नायब सूबेदार(जी डी) | दिवा करन एन            | (जे सी- 842571 एफ)      | 01 जनवरी 2014   |
| नायब सूबेदार(जी डी) | संग्राम सिंह           | (जे सी- 842572 के)      | 01 जनवरी 2014   |
| नायब सूबेदार(जी डी) | बिमल चन्द्रा दास       | (जे सी- 842575 एक्स)    | 01 जनवरी 2014   |
| नायब सूबेदार(जी डी) | छबी लाल गुरुंग         | (जे सी- 842579 एन)      | 01 जनवरी 2014   |
| नायब सूबेदार(जी डी) | लकारे राम रतन          | (जे सी- 842594 एच)      | 08 जनवरी 2014   |

**स्थाई सूबेदार मेजर/लिपिक (एस डी) के रैंक में**

|                         |                     |                      |                 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| सूबेदार / लिपिक (एस डी) | राधा कृष्णन नायर एन | (जे सी- 842102 वाई ) | 19 दिसम्बर 2013 |
|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|

**स्थाई सूबेदार/लिपिक (एस डी) के रैंक में**

|                             |                         |                     |                 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार/ लिपिक (एस डी) | नन्द किशोर              | (जे सी- 842341 एन ) | 01 अक्टूबर 2013 |
| नायब सूबेदार/ लिपिक (एस डी) | सुरेश एम                | (जे सी- 842359 के)  | 01 नवम्बर 2013  |
| नायब सूबेदार/ लिपिक (एस डी) | नागरकर सूर्याकान्त विठल | (जे सी- 842360वाई)  | 01 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार/ लिपिक (एस डी) | जगदीश चन्द्रा           | (जे सी- 842361एफ)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार/ लिपिक (एस डी) | रंजीत सिंह              | (जे सी- 842362 के)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार/ लिपिक (एस डी) | दामोदर शर्मा            | (जे सी- 842430 एम)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार/ लिपिक (एस डी) | खुशी राम यादव           | (जे सी- 842672 पी)  | 19 दिसम्बर 2013 |

|                             |                |                    |                 |
|-----------------------------|----------------|--------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार/ लिपिक (एस डी) | राम सिंह       | (जे सी- 842532 एच) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार/ लिपिक (एस डी) | कृष्ण पाल सिंह | (जे सी- 842614 एल) | 19 दिसम्बर 2013 |

**स्थाई सूबेदार मेजर (जी डी) के रैंक में**

|                |                        |                        |                 |
|----------------|------------------------|------------------------|-----------------|
| सूबेदार(जी डी) | मुरलीधरन पिल्ले एस     | (जे सी 810171 एफ)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | अशोक कुमार             | (जे सी 592551 एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | फतेह सिंह गुर्जर       | (जे सी 478270 पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | देवी दयाल              | (जे सी 108421 एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | कुलदीप सिंह            | (जे सी 578020 एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | प्रेम चन्द             | (जे सी 211652 एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | बियन्त सिंह            | (जे सी 841020 के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | मूल चन्द               | (जे सी 488902 एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | याधवा मूर्ती जी        | (जे सी 438779वाई)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | परभात सिंह             | (जे सी 260513एच)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | नरेन्द्रा सिंह         | (जे सी 203674एम)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | गुरचरन सिंह            | (जे सी 578538डब्ल्यू)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | जगतार सिंह             | (जे सी 498611 डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | गुरदास राम             | (जे सी 418108एन)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | फुनचोक छिरींग          | (जे सी 588048डब्ल्यू)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | अजीत कुमार             | (जे सी 579164एक्स)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | महावीर सिंह            | (जे सी 529141ए)        | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | अवतार सिंह             | (जे सी 226196ए)        | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | ज्ञान बहादुर गुरुंग    | (जे सी 617543ए)        | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | के भगवती मुथू पाण्डियन | (जे सी 367911एफ)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | सुरेश चन्द, एस एम      | (जे सी 239206एक्स)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | रवी कुमार वी           | (जे सी 841170ए)        | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | पबुदन सिंह             | (जे सी 538669वाई)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | लखविन्दर सिंह          | (जे सी 579142वाई)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | रोमेश चन्दर            | (जे सी 579146पी)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | कृष्णा नन्द तिवारी     | (जे सी 539252एल)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| सूबेदार(जी डी) | ग्रीगोरी जी जे         | (जे सी 841204एच)       | 19 दिसम्बर 2013 |

**स्थायी सूबेदार(जी डी) के रैंक में**

|                      |                         |                       |                 |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | लाल सिंह भवरीयाल        | (जे सी 539266एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कपूर सिंह               | (जे सी 842097वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कुमार निचल लक्ष्मन दासा | (जे सी 842104के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बाबू सिंह देश्वर        | (जे सी 842105एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | महावीर सिंह             | (जे सी 842111ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | भाग सिंह मेहरा          | (जे सी 538569एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सत्य प्रसाद             | (जे सी 412435एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रघुबीर सिंह रावत        | (जे सी 528691डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सी रामाचन्द्रन नायर     | (जे सी 842124ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दुलेन कुमार बोरा        | (जे सी 842155एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सत्य पाल सिंह           | (जे सी 528833एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | प्रकाश चन्द्रा          | (जे सी 528983वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | लालजी राम               | (जे सी 488654एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मुरारी लाल              | (जे सी 260534वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुरेश चन्द्रा ओझा       | (जे सी 265971एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दिनेश प्रसाद            | (जे सी 754923एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुखनिन्दर सिंह          | (जे सी 418269डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | हरजीत सिंह              | (जे सी 756118ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | हरसोले सुनील जयन्त      | (जे सी 239635वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कुलवन्त सिंह            | (जे सी 842167एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | शंकर कुण्डलिक धवाड़े    | (जे सी 640950पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गोपाल सिंह              | (जे सी 412806ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | शेर सिंह                | (जे सी 842197के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ब्रह्म प्रकाश           | (जे सी 508469एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बबेक सिंह               | (जे सी 347924एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुभाष चन्द्रर           | (जे सी 489529ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | पृथ्वी राज रौतेला       | (जे सी 539704एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | खरक सिंह मथवाल          | (जे सी 539929एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | शम्भू प्रसाद सिंह       | (जे सी 242225एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                          |                       |                 |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | राकेश कुमार शर्मा        | (जे सी 237767एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | इकेन्द्रा सिन्हा         | (जे सी 549047एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दिनेश प्रसाद यादव        | (जे सी 568676के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दर्शन सिंह               | (जे सी 579377एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गजाधर यादव               | (जे सी 412263वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मत्ता वारा प्रसाद रेड्डी | (जे सी 267810वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रंजीत सिंह, एस एम        | (जे सी 412861डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कुलदीप सिंह              | (जे सी 412516एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ओम नाथ                   | (जे सी 263885वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | श्रीधरन के               | (जे सी 842271ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | हरी प्रसाद यादव          | (जे सी 243004एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राज कुमार राई            | (जे सी 634130एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दलजीत सिंह               | (जे सी 842289डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | शहबादी मोहम्मद अलाउद्दीन | (जे सी 842304ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मोहिन्दर सिंह            | (जे सी 842322एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | विनोद कुमार              | (जे सी 519350के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ई शैक अबदुल्ला           | (जे सी 266768वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मनोज कुमार               | (जे सी 559395 एम)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गुलजार सिंह              | (जे सी 842077 एल)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जगदीश सिंह तनवर          | (जे सी 237718एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ईश्वर सिंह               | (जे सी 579056 एन)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | भूराराम चौधरी            | (जे सी 240600 पी)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जगन सिंह                 | (जे सी 842143 एच)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जय सिंह खंगरोत           | (जे सी 239080एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | घन श्याम कटोच            | (जे सी 518877 एम)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बोध राज                  | (जे सी 519223एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | देश राज जमवाल            | (जे सी 419031 एच)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | चरनजीत सिंह              | (जे सी 508209एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जी सुधाकर रेड्डी         | (जे सी 842171पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                             |                       |                 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | माधवन टी वी                 | (जे सी 842177डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | विश्वानाथन ई                | (जे सी 842178वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मधुसूधन सी                  | (जे सी 842179एफ)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | संकरन वी                    | (जे सी 438527एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राम सरूप                    | (जे सी 402599एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राणा सिंह                   | (जे सी 429242वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | भोपाल राम                   | (जे सी 539339एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रविन्दरानाथ सिंह            | (जे सी 328818के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुरजीत सिंह                 | (जे सी 529757एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | शानू सिंह                   | (जे सी 643020वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | प्रफुल्ला चन्द्रा सत्यार्थी | (जे सी 694533डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | टी बिमोल सिंह               | (जे सी 438235के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कृष्णा नन्द                 | (जे सी 412706पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | संतू राम                    | (जे सी 842234एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | स्वाँग रिगजिन               | (जे सी 183576एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गुरचरण कुमार                | (जे सी 592249एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बिक्कर सिंह                 | (जे सी 297218एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गंगा राम जाट                | (जे सी 488569पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | अनिल कुमार                  | (जे सी 271310वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | स्वरूप लाल                  | (जे सी 268172एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रोमेल चन्द                  | (जे सी 449037वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | तिलक राज                    | (जे सी 266761पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राम प्रपन पटेल              | (जे सी 842286एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | करतार सिंह रंगरा            | (जे सी 519027पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ओम प्रकाश                   | (जे सी 842328के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | नागर मल                     | (जे सी 842353एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | हरिश चन्दर                  | (जे सी 579958एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | महावीर सिंह                 | (जे सी 375039एम )     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गिरवर सिंह                  | (जे सी 569651के)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | महेन्द्रा पाण्डेय           | (जे सी 559577ए)       | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                        |                    |                 |
|----------------------|------------------------|--------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | दिनेश प्रसाद यादव      | (जे सी 559595एच)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | भानू प्रताप सिंह       | (जे सी 479645पी)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मेथ्यू टी के           | (जे सी 569598के)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | थोमस एन जेम्स          | (जे सी 308219एच)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बिष्णू पादा बिश्वास    | (जे सी 842357वाई)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कवर पाल सिंह           | (जे सी 842376के)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बीर बहादुर गुरुंग      | (जे सी 842389एफ)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जोगिन्दर सिंह          | (जे सी 842391वाई)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | देव राज                | (जे सी 842392एफ)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुबाश चन्दर            | (जे सी 842394एम)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बलदीप सिंह             | (जे सी 842403एच)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ऊमेद सिंह              | (जे सी 489243एल)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | टी रविन्दरन            | (जे सी 842422एन)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | एल पलानी चामी          | (जे सी 842428पी)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | पी सिवादासन            | (जे सी 842429एक्स) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दिनेश सिंह             | (जे सी 519461एफ)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | गगन बिहारी लैंका       | (जे सी 842446एक्स) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | दीनाचन्द्रन टी वी      | (जे सी 438396एम)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राजिन्दर सिंह          | (जे सी 498555एच)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | जगदीश चन्द             | (जे सी 519222 एम)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | नाहर सिंह              | (जे सी 261235एम)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बीर बहादुर साही        | (जे सी 623415वाई)  | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मंगल सिंह              | (जे सी 419456एफ)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राजेन्द्रा बहादुर सिंह | (जे सी 479045एम )  | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ठाकुर सिंह             | (जे सी 539189एफ)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | कल्याण सिंह            | (जे सी 539358एक्स) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | अनन्त कुमार मल         | (जे सी 580014एन)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मुनी सामी जी           | (जे सी 663666एल)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सरफुददीन अहमद          | (जे सी 469842के)   | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | राधाकृष्ण              | (जे सी 530040वाई)  | 19 दिसम्बर 2013 |

|                      |                    |                       |                 |
|----------------------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| नायब सूबेदार (जी डी) | जॉर्ज ब्रिटो       | (जे सी 438751वाई)     | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | एम के जॉर्ज कुट्टी | (जे सी 842466एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सिकन्दर सिंह       | (जे सी 842471डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | तजवर सिंह          | (जे सी 842477एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रमाकान्त शर्मा     | (जे सी 842479एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रमेश चन्दर सिंह    | (जे सी 842494एक्स)    | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | रवलोजी खंडप्पा     | (जे सी 842503एन)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ब्रह्म दास         | (जे सी 568923एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | समित्तर सिंह       | (जे सी 348527एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | बहादुर सिंह        | (जे सी 519258एल)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | सुन्दर सिंह        | (जे सी 810691एम)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | पुष्कर सिंह        | (जे सी 375110पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | मदन सिंह राजपूत    | (जे सी 469598पी)      | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | ददन सिंह           | (जे सी 375505डब्ल्यू) | 19 दिसम्बर 2013 |
| नायब सूबेदार (जी डी) | प्रेम सिंह         | (जे सी 842529एच)      | 19 दिसम्बर 2013 |

**नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में**

|                  |                         |                                          |                 |
|------------------|-------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| * हवलदार (जी डी) | प्रेम नारायण तिवारी     | (10389360 वाई<br>अब जे सी 843518 एच)     | 25 दिसम्बर 2013 |
| * हवलदार(जी डी)  | रमेश चन्द               | (13678520 पी अब<br>जे सी 843519 एल)      | 26 दिसम्बर 2013 |
| * हवलदार(जी डी)  | सुबास नाईक              | (10227356 वाई अब<br>जे सी 843522 एल)     | 03 दिसम्बर 2013 |
| * हवलदार(जी डी)  | वी रमय्या               | (14473549 ए अब<br>जे सी 843524 डबल्यू)   | 16 दिसम्बर 2013 |
| * हवलदार(जी डी)  | सम्भाजी आनन्दा<br>काशिद | (10146386 डबल्यू अब<br>जे सी 843525 वाई) | 16 दिसम्बर 2013 |
| * हवलदार(जी डी)  | रिपुन सैक्या            | (10244444 एल अब<br>जे सी 843526 एफ)      | 12 दिसम्बर 2013 |
| * हवलदार(जी डी)  | शेर सिंह कौरंगा         | (10181540 एच अब<br>जे सी 843528 एम)      | 10 दिसम्बर 2013 |

\* हवलदार(जी डी) रविन्दर प्रसाद सिंह (10478976 एफ अब 16 दिसम्बर 2013  
जे सी 843531 एम)

\* हवलदार (जी डी) श्रीनिवास (10436098पी अब 06 जनवरी 2014  
जे सी 843532 पी)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013)

\*\* हवलदार (जी डी) सीधेस्वर नायक (10259409 ए अब 09 दिसम्बर 2013  
जे सी 843537 एन)

\*\* हवलदार (जी डी) निरंजन सिंह (3383532 एक्स अब 06 दिसम्बर 2013  
जे सी 843538 डबल्यू)

\*\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013)

\*\*\* हवलदार (जी डी) लक्ष्मी नारायण (9417163 एल अब 06 दिसम्बर 2013  
जे सी 843543 एफ)

\*\*\* हवलदार (जी डी) अनिल कुमार सिंह (2675219 ए अब 03 दिसम्बर 2013  
जे सी 843545 एम)

\*\*\* हवलदार मुन्ना सिंह (10181710 एफ अब 01 दिसम्बर 2013  
(जी डी) जे सी 843546 पी)

\*\*\* हवलदार इन्द्रमनी प्रसाद मिश्रा (10181726 एम अब 09 दिसम्बर 2013  
(जी डी) जे सी 843547 एक्स)

\*\*\* हवलदार सतनाम सिंह (3383470 एच अब 06 जनवरी 2014  
(जी डी) जे सी 843551 ए)

\*\*\* हवलदार राजेश्वर सिंह (10314277 ए अब 02 दिसम्बर 2013  
(जी डी) जे सी 843552 एच)

\*\*\* हवलदार अवतार सिंह (10197323 डबल्यू अब 09 दिसम्बर 2013  
(जी डी) जे सी 843553 एल)

\*\*\* हवलदार गुरदीप सिंह (3383172 एम अब 09 दिसम्बर 2013  
(जी डी) जे सी 843554 एन)

\*\*\* हवलदार युवाराज हवलदार (10420369 एक्स अब 15 दिसम्बर 2013  
(जी डी) जे सी 843555 डबल्यू)

\*\*\* हवलदार जसबीर सिंह (10479233 एल अब 23 दिसम्बर 2013  
(जी डी) जे सी 843556 वाई)

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013)

|                       |                |                                   |                    |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|
| *** हवलदार<br>(जी डी) | अभय सिंह राठौर | (2675933 ए अब<br>जे सी 843557 एफ) | 16 दिसम्बर<br>2013 |
|-----------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|

\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013)

|                        |                        |                                             |               |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------------|---------------|
| **** हवलदार<br>(जी डी) | वी चिन्नादुराई         | (10165548 एल अब<br>जे सी 843561 के)         | 02 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | अमृत लाल               | (10389421 एल अब<br>जे सी 843562 एम)         | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | ए जॉन आरोकिया<br>दास   | (10451930 पी अब<br>जे सी 843564 एक्स)       | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | चवन शिवाजी<br>श्रीमन्त | (10119185 एन अब<br>जे सी 843565 ए)          | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | जवीर बली दशरथ          | (10118963 एफ अब<br>जे सी 843566 एच)         | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | भजन सिंह               | (10197136 एक्स अब<br>जे सी 843567 एल)       | 03 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | रामाकान्त              | (10478527 एमअब<br>जे सी 843568 एन)          | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | नन्द लाल               | (10181652 एच अब<br>जे सी 843569 डबल्यू)     | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | अनिल कुमार<br>पाण्डेय  | (10404898 ए अब<br>जे सी 843570 एल)          | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | नाहर सिंह              | (10404673 एक्स अब<br>जे सी 843571 एन)       | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | गोविन्द                | (10389289 डबल्यू अब<br>जे सी 843572 डबल्यू) | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | मातादीन पाण्डेय        | (10181449 एम अब<br>जे सी 843573 वाई)        | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | के गोपाला कृष्णन       | (10165463 पी अब<br>जे सी 843575 के)         | 01 जनवरी 2014 |
| **** हवलदार<br>(जी डी) | एस चिस्ती राज          | (10451986 एक्स अब<br>जे सी 843577 पी)       | 01 जनवरी 2014 |

\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014)

**नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में**

\*\*\*\*\* हवलदार बालाकृष्णन ए वी (8030266 वाई अब 01 जनवरी 2014  
लिपिक(एस डी) जे सी 843558 के)

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014

**नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में**

\* हवलदार शिव राम (8075673 एक्स अब 01 अगस्त 2013  
जे सी 843478 एम)

\* हवलदार दलीप सिंह (2878971 एल अब 01 अगस्त 2013  
जे सी 843483 एक्स)

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013)

\*\* हवलदार मलकित सिंह (3383299 पी अब 19 सितम्बर 2013  
जे सी 843496 पी)

\*\* हवलदार धन कुमार थापा (10373698 ए अब 02 सितम्बर 2013  
जे सी 843498 ए)

\*\* हवलदार केदार सिंह (14900411 एल अब 02 सितम्बर 2013  
जे सी 843499 एच)

\*\* हवलदार गिरे किशोर यशवन्त (10118961 डबल्यू अब 02 सितम्बर 2013  
जे सी 843500 एम)

\*\* हवलदार सुमेर सिंह (2873679 एम अब 19 सितम्बर 2013  
जे सी 843501 पी)

\*\* हवलदार रन्जोध सिंह (3383253 एम अब 02 सितम्बर 2013  
जे सी 843502 एक्स)

\*\* हवलदार श्याम बहादुर (10181481 एफ अब 02 सितम्बर 2013  
जे सी 843503 ए)

\*\* हवलदार गगन सिंह (10197268 एल अब 02 सितम्बर 2013  
जे सी 843504 एच)

\*\* हवलदार लक्ष्मी कान्त मिश्रा (10181735-एन अब 02 सितम्बर 2013  
जे सी 843505 एल)

\*\* हवलदार रणधीर सिंह (2872658 के अब 02 सितम्बर 2013  
जे सी 843506 एन)

\*\* हवलदार दलीप सिंह बोरा (13613235 एच अब 02 सितम्बर 2013  
जे सी 843507 डबल्यू)

|                                                                                              |        |                               |                                         |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
| **                                                                                           | हवलदार | सुजान सिंह                    | (3383382 एम) अब<br>जे सी 843508 वाई)    | 05 सितम्बर 2013 |
| **                                                                                           | हवलदार | राजविन्दर सिंह                | (3382512 एक्स अब<br>जे सी 843509 एफ)    | 04 सितम्बर 2013 |
| **                                                                                           | हवलदार | केम्पन्ना निग्गप्पा वानि      | (10146403 एल अब<br>जे सी 843510 डबल्यू) | 02 सितम्बर 2013 |
| **                                                                                           | हवलदार | कुलदीप सिंह                   | (3381960 एक्स अब<br>जे सी 843511 वाई)   | 02 सितम्बर 2013 |
| **                                                                                           | हवलदार | बसाना गौड़ा<br>शरानप्पा गौड़ा | (10420134 एल अब<br>जे सी 843512 एफ)     | 02 सितम्बर 2013 |
| **                                                                                           | हवलदार | हरिद्वार सिंह                 | (10181388 ए अब<br>जे सी 843513 के)      | 02 सितम्बर 2013 |
| *** ( नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013) |        |                               |                                         |                 |
| ***                                                                                          | हवलदार | संतोष सिंह गुरुंग             | (8824023 वाई अब<br>जे सी 843520 ए)      | 28 नवम्बर 2013  |
| ***                                                                                          | हवलदार | अंजान कुमार दास<br>सरकार      | (10273906 पी अब<br>जे सी 843527 के)     | 02 दिसम्बर 2013 |
| ***                                                                                          | हवलदार | राम मेहर सिंह                 | (2872709 एम अब<br>जे सी 843529 पी)      | 02 दिसम्बर 2013 |
| ***                                                                                          | हवलदार | लखी राम                       | (13611409 वाई अब<br>जे सी 843533 एक्स)  | 28 नवम्बर 2013  |
| *** ( नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013) |        |                               |                                         |                 |
| ****                                                                                         | हवलदार | लीला राम                      | (14340631 ए अब<br>जे सी 843536 एल)      | 29 नवम्बर 2013  |
| ****                                                                                         | हवलदार | फनी बाबू वी एस                | (13677022 डबल्यू अब<br>जे सी 843540 एन) | 16 नवम्बर 2013  |
| **** ( नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013) |        |                               |                                         |                 |
| *****                                                                                        | हवलदार | हरभजन सिंह                    | (3382868 एच अब<br>जे सी 843548 ए)       | 02 दिसम्बर 2013 |
| *****                                                                                        | हवलदार | अजाइब सिंह                    | (3382873 डबल्यू अब<br>जे सी 843549 एच)  | 01 दिसम्बर 2013 |

\*\*\*\*\* हवलदार कश्मीर सिंह (3382716 के अब 02 दिसम्बर 2013  
जे सी 843550 एक्स)

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013)

**नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में**

\*\*\*\*\* हवलदार ए अन्बालागन (14330075 एफ अब 01 सितम्बर 2013  
लिपिक(एस डी) जे सी 843493 एफ)

\*\*\*\*\* हवलदार धरम पाल सिंह (2468277 एक्स अब 01 सितम्बर 2013  
लिपिक(एस डी) जे सी 843494 के)

\*\*\*\*\* हवलदार जसविन्दर सिंह (10479684 एल अब 01 सितम्बर 2013  
लिपिक(एस डी) जे सी 843495 एम)

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2013)

\*\*\*\*\* हवलदार मो0 फैजर रहमान लस्कर (6916100 डबल्यूअब 01 अक्टूबर 2013  
लिपिक(एस डी) जे सी 843514 एम)

\*\*\*\*\* हवलदार विजय कुमार दुबे (1063618 के अब 01 अक्टूबर 2013  
लिपिक(एस डी) जे सी 843515 पी)

\*\*\*\*\* हवलदार बिजय कुमार नन्दी (10374196 के अब 01 अक्टूबर 2013  
लिपिक(एस डी) जे सी 843517 ए)

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013)

\*\*\*\*\* हवलदार विजया कुमार एम पी (2578889 एक्स अब 03 दिसम्बर 2013  
लिपिक(एस डी) जे सी 843542 वाई)

\*\*\*\*\* (नायब सूबेदार/लिपिक(एस डी) के रैंक में वेतन तथा भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 )

ऋषिपाल सिंह नेगी  
अवर सचिव

## MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 25th October 2014

## ARMY BRANCH

No. 239, dated 1st October 2014—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names :-

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

Capt to be Substantive Major

V-631H Capt      Chandan Singh      RVC      23.02.2014

DEEPAK NARANG  
Under Secretary

## ARMY BRANCH

No. 240, dated 7th October 2014—The President is pleased to made the following promotions :-

## REGULAR ARMY

Infantry

## THE SIKH REGIMENT

To be Subedar Major (GD)

Sub      Bachiter Singh      JC-499423F      01 Jun 14

To be Subedar (GD)

Nb Sub      Bhupinder Pal Singh      JC-500340L      27 Mar 14

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 15 Feb 14 without effect on pay and allowances

Nb Sub      Manjit Singh      JC-500314K      01 Mar 14

Nb Sub      Jagtar Singh      JC-500020W      01 May 14

Nb Sub      Gurdial Singh      JC-500100N      26 May 14

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allowances

Nb Sub      Charat Singh      JC-500323L      24 May 14

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allowances

Nb Sub      Lakhwinder Singh      JC-500325W      01 May 14

Nb Sub      Sukhpal Singh      JC-500457K      01 May 14

Nb Sub      Nachattar Singh      JC-500486Y      01 May 14

Nb Sub      Jarnail Singh      JC-500487F      01 May 14

Nb Sub      Satnam Singh      JC-500488K      01 May 14

Nb Sub      Harjit Singh      JC-500547L      01 May 14

Nb Sub      Malkit Singh      JC-500127L      05 Jun 14

Gtd ante date seniority in the rank of Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances

Nb Sub      Raghuvir Singh      JC-500363M      01 Jun 14

Nb Sub      Satnam Singh      JC-500469Y      01 Jun 14

## To be Nb Sub

|                                                                                                     |                       |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------|
| Hav                                                                                                 | Avtar Singh           | (3393149M now JC-500798P) | 25 Apr 14 |
| Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 18 Mar 14 without effect on pay and allowances |                       |                           |           |
| Hav                                                                                                 | Rajinder Partap Singh | (3393478H now JC-500799X) | 13 Jun 14 |
| Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 14 without effect on pay and allowances |                       |                           |           |
| Hav                                                                                                 | Daljit Singh, SM      | (3393548W now JC-500800F) | 13 May 14 |
| Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 23 Apr 14 without effect on pay and allowances |                       |                           |           |
| Hav                                                                                                 | Joginder Singh        | (3393601W now JC-500801K) | 24 May 14 |
| Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 24 Apr 14 without effect on pay and allowances |                       |                           |           |
| Hav                                                                                                 | Amarjit Singh         | (3392474A now JC-500802M) | 01 May 14 |
| Hav                                                                                                 | Surinder Singh        | (3391998P now JC-500803P) | 01 May 14 |
| Hav                                                                                                 | Gurnam Singh          | (3392955M now JC-500804X) | 11 Jun 14 |
| Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 14 without effect on pay and allowances |                       |                           |           |
| Hav                                                                                                 | Lakhvir Singh         | (3392565K now JC-500805A) | 01 May 14 |
| Hav                                                                                                 | Rajvinder Singh       | (3392667A now JC-500806H) | 01 May 14 |
| Hav                                                                                                 | Buta Singh            | (3393213Y now JC-500807L) | 01 May 14 |
| Hav                                                                                                 | Dilbag Singh          | (3393244Y now JC-500808N) | 01 May 14 |
| Hav                                                                                                 | Harjinder Singh       | (3393428X now JC-500809W) | 01 May 14 |
| Hav                                                                                                 | Gurmail Singh         | (3394988W now JC-500810L) | 05 Jun 14 |
| Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances |                       |                           |           |
| Hav                                                                                                 | Baljit Singh          | (3392609W now JC-500811N) | 02 Jun 14 |
| Gtd ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and alloances     |                       |                           |           |
| Hav                                                                                                 | Dalwinder Singh       | (3392938M now JC-500812W) | 01 Jun 14 |
| Hav                                                                                                 | Harvinder Singh       | (3394908N now JC-500813Y) | 21 Jun 14 |
| Gtd ante date of seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 14 without effect on pay and allowances |                       |                           |           |

## THE PARACHUTE REGIMENT

## To be Nb Sub

|                                                                            |                             |                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------|
| Hav                                                                        | Rajesh Kumar                | (No 13621610X Now JC-413792X)  | 01 Jul 2013 |
| Hav                                                                        | Chabukswar Anil Kanhu       | (No 13620374P Now JC-413791P)  | 01 Sep 2013 |
| Hav                                                                        | Khedkar Chandrakant Nivruti | (No 13619236F Now JC-413794H)  | 01 Sep 2013 |
| Hav                                                                        | Devendra Singh              | (No 13620134X Now JC-413789X)  | 06 Sep 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Sep 2013. |                             |                                |             |
| Hav                                                                        | Raj Rausi                   | (No 13619955A Now JC-413793A)  | 01 Oct 2013 |
| Hav                                                                        | Satvir Singh                | (No 2483672H Now JC-413795L)   | 01 Oct 2013 |
| Hav                                                                        | Raghubir Singh              | (No 4073587L Now JC-413796N)   | 01 Oct 2013 |
| Hav                                                                        | Harish Singh Bohra          | (No 13618528X Now JC-413797W)  | 28 Nov 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Nov 2013. |                             |                                |             |
| Hav                                                                        | Sanjiv Kumar                | (No 13621542P Now JC-413798Y ) | 14 Dec 2013 |

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Mar 2013.

|                                                                            |                                |             |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| Hav Harpal Singh                                                           | (No 1490305H Now JC-413805K )  | 08 Jan 2014 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Dec 2013. |                                |             |
| Hav Rabindra Kumar Kharel                                                  | (No 13618725A Now JC-413800L ) | 01 Jan 2014 |
| Hav Shivraj Singh                                                          | (No 13618956W Now JC-413801N ) | 01 Jan 2014 |
| Hav Ummed Singh                                                            | (No 13618864K Now JC-413802W ) | 01 Jan 2014 |
| Hav Sunil Kumar                                                            | (No 13618973W Now JC-413803Y ) | 01 Jan 2014 |
| Hav Narayan Singh Thapa                                                    | (No 13618934X Now JC-413804F ) | 01 Jan 2014 |
| Hav Ganesh Dutt                                                            | (No 1487199K Now JC-413745A)   | 05 Apr 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 19 Jan 2013. |                                |             |
| Hav Tej Singh Sendhav                                                      | (No 15461247X Now JC-413746H)  | 05 Apr 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 20 Jan 2013. |                                |             |
| Hav Rakesh Kumar                                                           | (No 9095719H Now JC-413752W)   | 01 May 2013 |
| Hav Bhupal Singh                                                           | (No 13618718K Now JC-413734N)  | 15 Feb 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jan 2013. |                                |             |
| Hav Prithviraj Singh Rathor                                                | (No 13618782F Now JC-413733L)  | 07 Feb 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2013. |                                |             |
| Hav Satyabeer Yadav                                                        | (No 13619105W Now JC-413740F)  | 21 Feb 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2013. |                                |             |
| Hav Sachin Kumar                                                           | (No 13621156H Now JC-413736Y)  | 25 Feb 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 24 Sep 2012. |                                |             |
| Hav Bali Ram Thapa                                                         | (No 13620934W Now JC-413750L)  | 14 Apr 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jan 2013. |                                |             |
| Hav Sasi Om                                                                | (No 13621404N Now JC-413741K)  | 05 Mar 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jan 2013. |                                |             |
| Hav Vivekanand B Patil                                                     | (No 13621444P Now JC-413744X)  | 01 Apr 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2013. |                                |             |
| Hav Sunil Kumar                                                            | (No 13621409M Now JC-413751N)  | 07 Apr 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Feb 2013. |                                |             |
| Hav Inder Singh Rathore                                                    | (No 13619824P Now JC-413732H)  | 10 Jan 2013 |
| Hav Kulwant Singh                                                          | (No 13619838P Now JC-413749W)  | 01 Apr 2013 |
| Hav Rajpal Singh Jadon                                                     | (No 13620035P Now JC-413743P)  | 01 Apr 2013 |
| Hav Karam Chand Thakur, SM                                                 | (No 3995986P Now JC-413742M)   | 07 Mar 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 27 Jan 2013. |                                |             |
| Hav D Paul Raj                                                             | (No 2595660P Now JC-413739M)   | 26 Dec 2012 |
| Hav Chander Pal                                                            | (No 3185023N Now JC-413737F)   | 28 Feb 2013 |
| *Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 10 Jan 2013. |                                |             |
| Hav Jagdish Singh                                                          | (No 4074030L Now JC-413747L)   | 24 Jan 2013 |

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 10 Jan 2013.

|                          |                              |             |
|--------------------------|------------------------------|-------------|
| Hav Ningappa Gangannavar | (No 2789142H Now JC-413748N) | 01 Apr 2013 |
|                          | To be Nb Sub Clk (SD)        |             |

|                               |                               |             |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav/Clk (SD) Jabar Singh Rana | (No 13620342M Now JC-413735W) | 25 Feb 2013 |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 05 Feb 2013.

|                                  |                               |             |
|----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav/Clk (SD) Rajesh Kumar Sharma | (No 13619968X Now JC-413738K) | 01 Mar 2013 |
|                                  | To be Nb Sub                  |             |

|                       |                               |             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Ram Ratan Lakhere | (No 13619493Y Now JC-413755K) | 01 Jun 2013 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|

|                  |                               |             |
|------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Virpal Singh | (No 13618794W Now JC-413756M) | 01 Jun 2013 |
|------------------|-------------------------------|-------------|

|                    |                               |             |
|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Khasti Ballabh | (No 13618808L Now JC-413757P) | 01 Jun 2013 |
|--------------------|-------------------------------|-------------|

|                    |                               |             |
|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Dipendra Singh | (No 13621565W Now JC-413754F) | 28 May 2013 |
|--------------------|-------------------------------|-------------|

|                 |                               |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Banshi Nath | (No 13619120L Now JC-413758X) | 01 Apr 2013 |
|-----------------|-------------------------------|-------------|

|                   |                               |             |
|-------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Sukhpal Singh | (No 13619865Y Now JC-413753Y) | 01 Apr 2013 |
|-------------------|-------------------------------|-------------|

|                     |                               |             |
|---------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Parminder Singh | (No 13620073L Now JC-413760P) | 15 Jun 2013 |
|---------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jun 2013.

|                 |                               |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Avtar Singh | (No 13620104A Now JC-413761X) | 21 Jun 2013 |
|-----------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jun 2013.

|                        |                               |             |
|------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Sunil Kumar Dharni | (No 13618874N Now JC-413763H) | 01 Jul 2013 |
|------------------------|-------------------------------|-------------|

|                  |                              |             |
|------------------|------------------------------|-------------|
| Hav Prem Prakash | (No 4184749A Now JC-413766W) | 01 Jul 2013 |
|------------------|------------------------------|-------------|

|                                |                              |             |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|
| Hav Amme Reddy Srinivasa Reddy | (No 2596214A Now JC-413780H) | 12 Aug 2013 |
|--------------------------------|------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 27 Mar 2013.

|                    |                              |             |
|--------------------|------------------------------|-------------|
| Hav Somappa Kedari | (No 2790086F Now JC-413784Y) | 26 Aug 2013 |
|--------------------|------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 27 Mar 2013.

|                    |                               |             |
|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Rama Moorthy R | (No 13620023A Now JC-413779N) | 18 Jul 2013 |
|--------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 27 Mar 2013.

|                           |                              |             |
|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Hav Pulapa Dhananjaya Rao | (No 2595574K Now JC-413775X) | 13 Jul 2013 |
|---------------------------|------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 27 Mar 2013.

|                          |                               |             |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Rupendra Kumar Verma | (No 15116469F Now JC-413769K) | 08 Jul 2013 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Apr 2013.

|                   |                               |             |
|-------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Shiwarz Singh | (No 13618577A Now JC-413768F) | 08 Jul 2013 |
|-------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Apr 2013.

|                |                               |             |
|----------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Purn Singh | (No 13618594A Now JC-413781L) | 14 Aug 2013 |
|----------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jul 2013.

|                 |                               |             |
|-----------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Govind Giri | (No 13618840A Now JC-413782N) | 19 Aug 2013 |
|-----------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 05 Jul 2013.

|                           |                              |             |
|---------------------------|------------------------------|-------------|
| Hav Gawai Rajesh Niwrucci | (No 4563390K Now JC-413776A) | 01 May 2013 |
|---------------------------|------------------------------|-------------|

|                    |                              |             |
|--------------------|------------------------------|-------------|
| Hav Bijender Singh | (No 2789681Y Now JC-413774P) | 12 Jul 2013 |
|--------------------|------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jun 2013.

|                    |                               |             |
|--------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Anup Kumar Pal | (No 13619778L Now JC-413773M) | 08 Jul 2013 |
|--------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jul 2013.

|                   |                               |             |
|-------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Apresh Prasad | (No 13619539W Now JC-413767Y) | 28 Jun 2013 |
|-------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 May 2013.

|                            |                               |             |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Taral Anil Ram Chandra | (No 13619732H Now JC-413772K) | 01 Jul 2013 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|

|                       |                               |             |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Sarat Kumar Patro | (No 13620260K Now JC-413777H) | 01 Jul 2013 |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|

|                          |                               |             |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Bhagwan Singh Samant | (No 13618866P Now JC-413770Y) | 12 Jul 2013 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 26 Jun 2013.

|                  |                               |             |
|------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Sanjay Kumar | (No 13619132A Now JC-413790M) | 10 Sep 2013 |
|------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Sep 2013.

|                  |                               |             |
|------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Sushil Kumar | (No 13619884K Now JC-413788P) | 03 Sep 2013 |
|------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jun 2013.

|                          |                               |             |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav Prasant Kumar Mishra | (No 13620117X Now JC-413783W) | 19 Aug 2013 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Aug 2013.

|                         |                               |             |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav/Clk(SD) Datar Singh | (No 13620290F Now JC-413759A) | 27 May 2013 |
|-------------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 May 2013.

|                             |                               |             |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav/Clk(SD) Rajendra Maurya | (No 13620291K Now JC-413762A) | 01 Jun 2013 |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------|

|                           |                               |             |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav/Clk(SD) Mohammad Rauf | (No 13620293P Now JC-413771F) | 15 Jul 2013 |
|---------------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jun 2013.

|                          |                               |             |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav/Clk(SD) Sanjit Banik | (No 13620302L Now JC-413764L) | 06 Jul 2013 |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|

\*Gtd ante date seniority without effect on pay and allces wef 01 Jul 2013.

|                            |                               |             |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav/Clk(SD) Surendra Yadav | (No 13620310K Now JC-413765N) | 01 Jul 2013 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|

|                            |                               |             |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|
| Hav/Clk(SD) Surendra Singh | (No 13620333L Now JC-413778L) | 01 Aug 2013 |
|----------------------------|-------------------------------|-------------|

VN RAVEENDRAN  
Under Secretary

#### ARMY BRANCH

No. 241, dated 8<sup>th</sup> October 2014— The President is pleased to make the following promotion /substantive :-

#### REGULAR ARMY

#### DEFENCE SECURITY CORPS

To be Substantive Subedar Major (GD)

|             |                     |               |             |
|-------------|---------------------|---------------|-------------|
| Subedar(GD) | Harsh Singh, SM     | (JC-212670X ) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Subhash Chand       | (JC-518973F ) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Gulzar Ahmed        | (JC-578906A)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Milkha Singh        | (JC-508502A)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Chander Prakash     | (JC-478787A)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Diwan Raj           | (JC-448850P ) | 06 Feb 2014 |
| Subedar(GD) | Shyam Singh Rathore | (JC-840961L)  | 03 Feb 2014 |

|             |                     |               |             |
|-------------|---------------------|---------------|-------------|
| Subedar(GD) | Nirmal Singh        | (JC-428141Y)  | 06 Feb 2014 |
| Subedar(GD) | Ravindra Nath Patil | (JC-841032Y ) | 06 Feb 2014 |
| Subedar(GD) | Rohtas Singh        | (JC-468195H ) | 01 Feb 2014 |

## To be Substantive Subedar (GD)

|                  |                       |               |             |
|------------------|-----------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar(GD) | Naval Kishore Singh   | (JC-559641M ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Rami Chand            | (JC-420149W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bachchan Singh        | (JC-418355F)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Narayan Dash          | (JC-842165F ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Rumalu Ram            | (JC-842172X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ratan Singh           | (JC-238168A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Raja Kishore Sahu     | (JC-558722A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kuldeep Chand Shukla  | (JC-429106H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sharana Gouda Birada  | (JC-842198M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Gurdip Singh          | (JC-508678L ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sukhdev Singh         | (JC-508411W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Krishna Prasad Gurung | (JC-607599Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bhagwan Singh         | (JC-810571N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Janardhan Mishra      | (JC-299056W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sang Tshering Lepcha  | (JC-634556N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bom Bahadur Kharka    | (JC-549008Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Baldev Raj            | (JC-488966N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mukand Singh          | (JC-298346F)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Chand Singh Rajput    | (JC-268493P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Labh Singh            | (JC-842269H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Rabi Nath Prasad      | (JC-221172M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kalu Ram Bisnoi       | (JC-375219P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Prakash Chand         | (JC-529669X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Santokh Singh         | (JC-266999P ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Badam Singh           | (JC-469691W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Lanke Udhaio Mhataji  | (JC-842334X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Khadse Rajendra       | (JC-842335A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bardane Laxman Mahhu  | (JC-842337L ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bani Singh            | (JC-569789Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kuldeep Singh Chauhan | (JC-520071L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Puran Chand           | (JC-842355N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bakhtabar Singh Rawat | (JC-418584M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Vikas Dhadwal         | (JC-239259W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Amlesh Tiwari         | (JC-642577Y ) | 19 Dec 2013 |

|                  |                          |               |             |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar(GD) | Basu Deo                 | (JC-663080P ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Vijay Kumar Tiwari       | (JC-842409K)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Krishna Lal Gurung       | (JC-370130Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Gajendra Singh Tomar     | (JC-758326N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Lekh Raj                 | (JC-518356Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dimbeswar Kakoti         | (JC-548009P ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Charanjit Singh Assla    | (JC-592177N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Harjit Singh             | (JC-428633X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | RC Asok Kumar            | (JC-438557W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | L Thang Kholun Kuki      | (JC-548782F ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Narinder Singh, SM       | (JC-412567W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Pramatha Kumar Biswas    | (JC-240155K ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Balwant Singh            | (JC-270060W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dhan Raj Gurung          | (JC-220359M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jyotish Chandra Ray      | (JC-842053F ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bhup Singh               | (JC-237635A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Arun Kothe               | (JC-842463X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Gaikwad Bhanudas Narayan | (JC-842485W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | C Ramesh Kumar           | (JC-842490F ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Saroj Rao                | (JC-842501H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bhanu Gurung             | (JC-842502L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Tejendra Singh           | (JC-419427M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bihari Ram               | (JC-842530X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Krishna Bahadur Rana     | (JC-580001W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dilwar Singh             | (JC-842517W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Suresh Bahadur Singh     | (JC-842518W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Pardeep Singh            | (JC-842528A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mani Ram                 | (JC-240052H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ramesh K                 | (JC-842547L ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Narender Singh           | (JC-842559A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Roshan Lal               | (JC-842553Y ) | 01 Feb 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Hardyal Singh            | (JC-842580H ) | 01 Jan 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Ranvir Singh             | (JC-842583W)  | 01 Jan 2014 |
| Naib Subedar(GD) | S Devaraj                | (JC-842593A ) | 01 Jan 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Lokare Ram Ratan         | (JC-842594H ) | 08 Jan 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Vijay Singh Yadav        | (JC-842596N ) | 01 Feb 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Ajit Singh               | (JC-842597W)  | 01 Feb 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Jagdish                  | (JC-842599F ) | 01 Feb 2014 |

|                                          |                            |               |             |
|------------------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar(GD)                         | Ranvijay Pratap Singh      | (JC-842603Y)  | 01 Feb 2014 |
| Naib Subedar(GD)                         | Govind Singh               | (JC-842609A)  | 03 Feb 2014 |
| To be Substantive Subedar Major/Clk (SD) |                            |               |             |
| Subedar/Clk(SD)                          | Raj Kumar Yadav            | (JC-841966W)  | 03 Mar 2014 |
| To be Substantive Subedar (GD)           |                            |               |             |
| Naib Subedar(GD)                         | Makhan Singh               | (JC-842156A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Virendra Kumar Singh       | (JC-829207K ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Mastan Singh               | (JC-268498N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Manoharan MV               | (JC-842279M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Chanchal Singh             | (JC-266754Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Desh Raj                   | (JC-420126P ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Ved Prakash                | (JC-842324N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Jagat Bahadur Gurung       | (JC-617575H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Bishwo Kiran Shrestha      | (JC-602658W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Girdhari Lal Marwari       | (JC-403669L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Chanchal Singh             | (JC-403632K ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Jagdish Rai                | (JC-818475N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Rajender Singh             | (JC-842387W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Teja Singh                 | (JC-842388Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Tejinder Singh             | (JC-508547A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Pratap Singh               | (JC-261165Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Jai Singh                  | (JC-489565L ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Salim PH                   | (JC-458920W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Bram Prakash               | (JC-268290L ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Shinde Bhau Saheb Babu Rao | (JC-842433A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Dinan K                    | (JC-263043N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Vijai Pal Singh            | (JC-842454W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Tasdik                     | (JC-350132H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Ram Laxman Thapa           | (JC-612312A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Khim Bahadur Thapa         | (JC-602726Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Jagrup Singh               | (JC-726472A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Sumer Singh Inda           | (JC-412793N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Ganga Prasad Pandey        | (JC-248080A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Purushotam Singh           | (JC-509126F ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Yogamber Singh, SM         | (JC-412760H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Prahlad Ram Meena          | (JC-241772W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Rai Anandam                | (JC-842468W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD)                         | Arjun Singh                | (JC-842478A ) | 19 Dec 2013 |

|                  |                     |               |             |
|------------------|---------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar(GD) | Digar Dev           | (JC-842486Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jugraj Singh        | (JC-508473W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Narain Singh        | (JC-449257H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Tulsi Ram Gurjar    | (JC-403088N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ram Singh           | (JC-842513X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sajjan Singh        | (JC-842514A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jagdish Singh Khati | (JC-329152H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sonam Paldan        | (JC-588270A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jagtar Singh        | (JC-580457P ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Soor Bir Singh      | (JC-529726N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Subash Chander      | (JC-520812X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sob Singh Rajput    | (JC-420054W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Parmod Kumar Sharma | (JC-420790P ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Madhan Chand, SM    | (JC-539122H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Babu Ram            | (JC-593073Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Onkar Chand         | (JC-429807Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mohd Yasin          | (JC-756041H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mahaveer Singh      | (JC-297484W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jiwan Singh         | (JC-263155N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Vinod Kumar P       | (JC-269010Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | A Anumappan         | (JC-308736A ) | 19 Dec 2013 |

## To be Substantive Subedar/Clk(SD)

|                      |                      |               |             |
|----------------------|----------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar/Clk(SD) | Madan Lal Tiwari     | (JC-842377M ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Raj Bahadur Yadava   | (JC-842379X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | S Adi Brahmanandam   | (JC-842416A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Prem Singh           | (JC-842417H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Om Prakash Semwal    | (JC-842482H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Sushil Kumar         | (JC-842484N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | K Thiagarajan        | (JC-842508M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Lavhate Sharad Baban | (JC-843317K ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Suresh Chandra       | (JC-842586K)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Raj Kumar Patyal     | (JC-842587M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Patil Vilas Ganapati | (JC-842611X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Radha Mohan Sharma   | (JC-842612A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Anil Kumar           | (JC-842613H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Sahib Singh          | (JC-842616W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Rabindra Nath Sahoo  | (JC-842653K ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Joginder Singh       | (JC-842654K ) | 19 Dec 2013 |

|                      |                    |               |             |
|----------------------|--------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar/Clk(SD) | Joga Singh Cheema  | (JC-842655P ) | 01 Mar 2014 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Tirth Raj          | (JC-842656X ) | 01 Mar 2014 |
| Naib Subedar/Clk(SD) | Prasanna Kumaran N | (JC-842670K ) | 01 Mar 2014 |

## To be Substantive Subedar Major (GD)

|             |                    |               |             |
|-------------|--------------------|---------------|-------------|
| Subedar(GD) | Sukhdev Singh      | (JC-841026L)  | 01 Sep 2013 |
| Subedar(GD) | Kunj Bihari Singha | (JC-548253P ) | 03 Mar 2014 |
| Subedar(GD) | Deepak Kumar       | (JC-623224K ) | 01 Mar 2014 |
| Subedar(GD) | Kawade Dilip Datta | (JC-172733K ) | 01 Mar 2014 |
| Subedar(GD) | Surendra Singh     | (JC-528600F ) | 01 Mar 2014 |

## To be Substantive Subedar (GD)

|                  |                           |               |             |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar(GD) | Kartar Singh              | (JC-238241N)  | 01 Jun 2012 |
| Naib Subedar(GD) | Uma Shankar Singh         | (JC-841920N ) | 01 Jan 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Iqbal Singh, SM           | (JC-499111L ) | 01 Feb 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Vinod Kumar Verma         | (JC-842009X)  | 01 May 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ranbir Singh              | (JC-842018W)  | 01 Jun 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Prasant Kumar Barik       | (JC-842043X ) | 01 Jun 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Tomy NJ                   | (JC-438629H)  | 01 Jul 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Parveen Kumar Katal       | (JC-579773F)  | 01 Aug 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Attar Singh               | (JC-239173X ) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Prakash Chand Azad        | (JC-518547N ) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jadhav Vishnu Trimbak     | (JC-842045H ) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Gangadharan K             | (JC-842061Y ) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Raghubir Singh            | (JC-257433A ) | 10 Nov 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kamla Kanta Bailung       | (JC-266980W)  | 01 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Raj Singh                 | (JC-579796H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Suresh Chander            | (JC-578930W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mahabir Singh             | (JC-448364X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mahendra Prasad Chaurasia | (JC-368510Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Hosiyar Singh             | (JC-842191H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Om Prakash                | (JC-529885L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ranjit Sarkar             | (JC-643146Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Brajendra Singh Chauhan   | (JC-842243N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Pancha Kanar              | (JC-558610A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Parshotam Lal             | (JC-268396X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Joginder Singh            | (JC-469759M ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Pandua Ram Zerai          | (JC-558699X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Saraswati Prasad          | (JC-842373W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sawaran Singh             | (JC-842374Y ) | 19 Dec 2013 |

|                  |                          |               |             |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar(GD) | Ganesh Singh             | (JC-538213A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Chandrika Singh Kushwaha | (JC-842380M ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Uma Kant Rai             | (JC-842395P ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dwarika Nath Tiwari      | (JC-842399L ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Chandra Mohan Singh      | (JC-761794Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | C Alagu                  | (JC-842440W ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sarvesh Singh            | (JC-225400F ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sukh Ram                 | (JC-255435M ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Laxman Singh             | (JC-538651H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mandrup Singh            | (JC-842458M ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Nim Beppa Telamatti      | (JC-842465H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jamna Dass               | (JC-842515H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dev Raj                  | (JC-842552W)  | 28 Feb 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Satya Deo Singh          | (JC-842565N ) | 27 Feb 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Ramesh Singh             | (JC-842610P ) | 01 Feb 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Pushkar Singh            | (JC-402493Y ) | 01 Mar 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Bhargavan Pillai         | (JC-298458F ) | 01 Mar 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Yash Pal                 | (JC-663791P ) | 01 Mar 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Tarlochan Singh          | (JC-429868W ) | 01 Mar 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Mandhir Singh            | (JC-412742A ) | 01 Mar 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Raveendran CK            | (JC-842617Y ) | 01 Mar 2014 |
| Naib Subedar(GD) | Dilwar Singh             | (JC-842622K ) | 01 Mar 2014 |

To be Substantive Subedar Major (GD)

|              |                    |              |             |
|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| Subedar (GD) | Manna Ram Mahalla  | (JC-257692H) | 01 Sep 2013 |
| Subedar (GD) | Md Muneem Pasha    | (JC-458356M) | 01 Oct 2013 |
| Subedar (GD) | Gobind Singh Bora  | (JC-841009L) | 01 Nov 2013 |
| Subedar (GD) | Ranjeet Singh      | (JC-171866N) | 01 Nov 2013 |
| Subedar (GD) | Man Bahadur Poon   | (JC-612125F) | 01 Dec 2013 |
| Subedar (GD) | Digvijay Singh, SM | (JC-478647N) | 19 Dec 2013 |
| Subedar (GD) | Onkar Singh        | (JC-578746L) | 19 Dec 2013 |

To be Substantive Subedar (GD)

|                   |                   |              |             |
|-------------------|-------------------|--------------|-------------|
| Naib Subedar (GD) | Lodric Pasku Zuje | (JC-224519Y) | 01 Oct 2012 |
| Naib Subedar(GD)  | Laxman Singh      | (JC-842008P) | 01 May 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Balbir Singh      | (JC-520138Y) | 01 Aug 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Bakshshish Singh  | (JC-450171W) | 01 Aug 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Dev Raj           | (JC-578872X) | 01 Sep 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Dwarka Prasad     | (JC-237722N) | 01 Sep 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Romesh Kumar      | (JC-428770W) | 01 Sep 2013 |

|                   |                      |              |             |
|-------------------|----------------------|--------------|-------------|
| Naib Subedar (GD) | Samunder Singh       | (JC-237795A) | 01 Sep 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Manbir Singh         | (JC-263582K) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Shri Raman Dubey     | (JC-258963F) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Nagesh R             | (JC-419227W) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Bal Bahadur Chhetri  | (JC-842044A) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Ram Prasad Chhetri   | (JC-842059H) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Neel Kumar           | (JC-724216M) | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Sudama Prasad        | (JC-296453K) | 01 Nov 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Shirvan Kumar Pandey | (JC-373570X) | 01 Nov 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Pritam Chand         | (JC-238879A) | 01 Nov 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Mahaveer Singh       | (JC-469099A) | 01 Nov 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Baldev Singh         | (JC-419460K) | 01 Nov 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Man Bahadur Pradhan  | (JC-607500X) | 01 Nov 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Ashok Kumar Singh    | (JC-539425X) | 01 Nov 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Greesan Nair         | (JC-307310M) | 01 Nov 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Jaspal Singh         | (JC-529694W) | 01 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Chhering Angchok     | (JC-588399L) | 01 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Surendra Nath Pandey | (JC-818898F) | 01 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Som Nath             | (JC-593086W) | 01 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Bharat Singh         | (JC-569537M) | 01 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Ravendran S          | (JC-238995H) | 01 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Saru Ram Saikia      | (JC-374957M) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Jaibir Singh         | (JC-569366L) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Chandra Shekar Bhatt | (JC-694752X) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Ramesh Chand         | (JC-420349M) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Ugam Singh           | (JC-695196Y) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Dharambir            | (JC-267825F) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Jhirmal Singh        | (JC-270027Y) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Karnail Singh        | (JC-508638K) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Ram Lal              | (JC-428903F) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Ramesh Chand         | (JC-498381N) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar (GD) | Baj Ram              | (JC-842556M) | 01 Jan 2014 |
| Naib Subedar (GD) | Diva Karan N         | (JC-842571F) | 01 Jan 2014 |

|                                            |                           |               |             |
|--------------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar (GD)                          | Sangram Singh             | (JC-842572K)  | 01 Jan 2014 |
| Naib Subedar (GD)                          | Bimal Chandra Das         | (JC-842575X)  | 01 Jan 2014 |
| Naib Subedar (GD)                          | Chhabi Lal Gurung         | (JC-842579N)  | 01 Jan 2014 |
| Naib Subedar (GD)                          | Lakare Ram Ratan          | (JC-842594H)  | 08 Jan 2014 |
| (To be Substantive Subedar Major/Clk (SD)) |                           |               |             |
| Subedar/Clk(SD)                            | Radha Krishnan Nair N     | (JC-842102Y)  | 19 Dec 2013 |
| To be Substantive Subedar /Clk (SD)        |                           |               |             |
| Naib Subedar/Clk(SD)                       | Nand Kishor               | (JC-842341N)  | 01 Oct 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD)                       | Suresh M                  | (JC-842359K)  | 01 Nov 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD)                       | Nagarkar Suryakant Vithal | (JC-842360Y)  | 01 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD)                       | Jagdish Chandra           | (JC-842361F)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD)                       | Ranjit Singh              | (JC-842362K)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD)                       | Damodar Sharma            | (JC-842430M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD)                       | Khushi Ram Yadav          | (JC-842672P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD)                       | Ram Singh                 | (JC-842532H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar/Clk(SD)                       | Krishan Pal Singh         | (JC-842614L)  | 19 Dec 2013 |
| To be Substantive Subedar Major (GD)       |                           |               |             |
| Subedar(GD)                                | Muraleedharan Pillai S    | (JC-810171F)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Ashok Kumar               | (JC-592551L)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Fateh Singh Gurjar        | (JC-478270P ) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Devi Dayal                | (JC-108421N)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Kuldeep Singh             | (JC-578020H)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Prem Chand                | (JC-211652H)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Beant Singh               | (JC-841020K)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Mool Chand                | (JC-488902H)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Yadhava Murthy G          | (JC-438779Y)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Parbhat Singh             | (JC-260513H)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Narendra Singh            | (JC-203674M)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Gurcharan Singh           | (JC-578538W)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Jagtar Singh              | (JC-498611W)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Gurdass Ram               | (JC-418108N)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Phunchok Chhering         | (JC-588048W)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Ajeet Kumar               | (JC-579164X)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Mahavir Singh             | (JC-529141A)  | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Avtar Singh               | (JC-226196A ) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | Gain Bahadur Gurung       | (JC-617543A ) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD)                                | K Bagavathi Muthu Pandian | (JC-367911F ) | 19 Dec 2013 |

|             |                     |              |             |
|-------------|---------------------|--------------|-------------|
| Subedar(GD) | Suresh Chand, SM    | (JC-239206X) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Ravi Kumar V        | (JC-841170A) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Pabudan Singh       | (JC-538669Y) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Lakhwinder Singh    | (JC-579142Y) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Romesh Chander      | (JC-579146P) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Krishna Nand Tewari | (JC-539252L) | 19 Dec 2013 |
| Subedar(GD) | Gregory GJ          | (JC-841204H) | 19 Dec 2013 |

## To be Substantive Subedar (GD)

|                  |                          |               |             |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar(GD) | Lal Singh Bhawariyal     | (JC-539266L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kapoor Singh             | (JC-842097Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kumar Nichal Laxman Dasa | (JC-842104K ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Babu Singh Deshwer       | (JC-842105M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mahavir Singh            | (JC-842111A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bhag Singh Mehra         | (JC-538569N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Satya Prasad             | (JC-412435H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Raghubir Singh Rawat     | (JC-528691W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | C Ramachandran Nair      | (JC-842124A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dulen Kumar Bora         | (JC-842155X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Satya Pal Singh          | (JC-528833H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Prakash Chandra          | (JC-528983Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Lalji Ram                | (JC-488654X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Murari Lal               | (JC-260534Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Suresh Chandra Ojha      | (JC-265971H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dinesh Prasad            | (JC-754923L ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sukhninder Singh         | (JC-418269W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Harjeet Singh            | (JC-756118A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Harsole Sunil Jayant     | (JC-239635Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kulwant Singh            | (JC-842167M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Shankar Kundlik Dhawade  | (JC-640950P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Gopal Singh              | (JC-412806A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sher Singh               | (JC-842197K ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Brahm Prakash            | (JC-508469N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Babek Singh              | (JC-347927L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Subhash Chander          | (JC-489529A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Prithvi Raj Rautela      | (JC-539704H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kharak Singh Mathwal     | (JC-539929L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Shambhu Prasad Singh     | (JC-242225N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Rakesh Kumar Sharma      | (JC-237767N)  | 19 Dec 2013 |

|                  |                          |               |             |
|------------------|--------------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar(GD) | Ekendra Singha           | (JC-549047X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dinesh Prasad Yadav      | (JC-568676K ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Darshan Singh            | (JC-579377L ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Gajadhar Yadav           | (JC-412263Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Matta Vara Prasada Reddy | (JC-267810Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ranjit Singh, SM         | (JC-412861W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kuldip Singh             | (JC-412516H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | OM Nath                  | (JC-263885Y ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sreedharan K             | (JC-842271A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Hari Prasad Yadav        | (JC-243004N ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Raj Kumar Rai            | (JC-634130M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Daljit Singh             | (JC-842289W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Shahbadi Mohd Allauddin  | (JC-842304A ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mohinder Singh           | (JC-842322H ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Vinod Kumar              | (JC-519350K ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | E Sheik Abdullah         | (JC-266768Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Manoj Kumar              | (JC-559395M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Gulzar Singh             | (JC-842077L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jagdish Singh Tanwar     | (JC-237718L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ishwar Singh             | (JC-579056N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bhura Ram Chowdhury      | (JC-240600P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jagan Singh              | (JC-842143H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jai Singh Khangarot      | (JC-239080H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ghan Shyam Katoch        | (JC-518877M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bodh Raj                 | (JC-519223M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Des Raj Jamwal           | (JC-419031H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Charanjit Singh          | (JC-508209H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | G Sudharkar Reddy        | (JC-842171P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Madhavan TV              | (JC-842177W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Vishwanathan E           | (JC-842178Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Madhusudhanan C          | (JC-842179F ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sankaran V               | (JC-438527M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ram Saroop               | (JC-402599L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Rana Singh               | (JC-429242Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bhopal Ram               | (JC-539339M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ravindranath Singh       | (JC-328818K)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Surjit Singh             | (JC-529757N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Shanu Singh              | (JC-643020Y)  | 19 Dec 2013 |

---

|                  |                           |               |             |
|------------------|---------------------------|---------------|-------------|
| Naib Subedar(GD) | Prafulla Chandra Styarthi | (JC-694533W)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | T Bimol Singh             | (JC-438235K)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Krishna Nand              | (JC-412706P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Santu Ram                 | (JC-842234M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Tsewang Rigzin            | (JC-183576H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Gurcharn Kumar            | (JC-592249M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bikker Singh              | (JC-297218X ) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ganga Ram Jat             | (JC-488569P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Anil Kumar                | (JC-271310Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Swarup Lal                | (JC-268172X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Romel Chand               | (JC-449037Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Tilak Raj                 | (JC-266761P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ram Prapan Patel          | (JC-842286H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kartar Singh Rangra       | (JC-519027P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Om Prakash                | (JC-842328K)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Nagar Mal                 | (JC-842353H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Harish Chander            | (JC-579958H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mahavir Singh             | (JC-375039M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Girver Singh              | (JC-569651K)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mahendra Pandey           | (JC-559577A)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dinesh Prasad Yadav       | (JC-559595H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bhanu Pratap Singh        | (JC-479645P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mathew TK                 | (JC-569598K)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Thomas N James            | (JC-308219H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bishnu Pada Biswas        | (JC-842357Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kawar Pal Singh           | (JC-842376K)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bir Bahadur Gurung        | (JC-842389F)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Joginder Singh            | (JC-842391Y)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dev Raj                   | (JC-842392F)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Subash Chander            | (JC-842394M)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Baldeep Singh             | (JC-842403H)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Umed Singh                | (JC-489243L)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | T Ravindran               | (JC-842422N)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | L Palani Chamy            | (JC-842428P)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | P Sivadasan               | (JC-842429X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dinesh Singh              | (JC-519461F)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Gagan Bihari Lenka        | (JC-842446X)  | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dinachandran TV           | (JC-438396M)  | 19 Dec 2013 |

|                  |                        |              |             |
|------------------|------------------------|--------------|-------------|
| Naib Subedar(GD) | Rajinder Singh         | (JC-498555H) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Jagdish Chand          | (JC-519222M) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Nahar Singh            | (JC-261235M) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bir Bahadur Sahi       | (JC-623415Y) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Mangal Singh           | (JC-419456F) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Rajendra Bahadur Singh | (JC-479045M) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Thakur Singh           | (JC-539189F) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Kalyan Singh           | (JC-539358X) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Anant Kumar Mall       | (JC-580014N) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Muni Samy G            | (JC-663666L) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sarfuddin Ahmad        | (JC-469842K) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Radhakrishnan          | (JC-530040Y) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | George Britto          | (JC-438751Y) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | MK George Kutty        | (JC-842466L) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sikander Singh         | (JC-842471W) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Tajbar Singh           | (JC-842477X) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ramakant Sharma        | (JC-842479H) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ramesh Chander Singh   | (JC-842494X) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Ravaloji Khandappa     | (JC-842503N) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Braham Dass            | (JC-568923M) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Samittar Singh         | (JC-348527L) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Bahadur Singh          | (JC-519258L) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Sunder Singh           | (JC-810691M) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Pushkar Singh          | (JC-375110P) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Madan Singh Rajput     | (JC-469598P) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Dadan Singh            | (JC-375505W) | 19 Dec 2013 |
| Naib Subedar(GD) | Prem Singh             | (JC-842529H) | 19 Dec 2013 |

## To be Naib Subedar (GD)

|   |         |                        |                         |     |             |
|---|---------|------------------------|-------------------------|-----|-------------|
| * | Hav(GD) | Prem Narayan Tiwari    | 10389360Y<br>JC-843518H | Now | 25 Dec 2013 |
| * | Hav(GD) | Ramesh Chand           | 13678520P<br>JC-843519L | Now | 26 Dec 2013 |
| * | Hav(GD) | Subash Naik            | 10227356Y<br>JC-843522L | Now | 03 Dec 2013 |
| * | Hav(GD) | V Ramiah               | 14473549A<br>JC-843524W | Now | 16 Dec 2013 |
| * | Hav(GD) | Sambhaji Ananda Kashid | 10146386W<br>JC-843525Y | Now | 16 Dec 2013 |
| * | Hav(GD) | Ripun Saikia           | 10244444L               | Now | 12 Dec 2013 |

|                                                                                                |         |                         |                         |     |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|-------------------------|-----|-------------|
|                                                                                                |         |                         | JC-843526F              |     |             |
| *                                                                                              | Hav(GD) | Sher Singh Koranga      | 10181540H<br>JC-843528M | Now | 10 Dec 2013 |
| *                                                                                              | Hav(GD) | Ravinder Prasad Singh   | 10478976F<br>JC-843531M | Now | 16 Dec 2013 |
| *                                                                                              | Hav(GD) | Sriniwas                | 10436098P<br>JC-843532P | Now | 06 Jan 2014 |
| *(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances)    |         |                         |                         |     |             |
| **                                                                                             | Hav(GD) | Sidheswar Nayak         | 10259409A<br>JC-843537N | Now | 09 Dec 2013 |
| **                                                                                             | Hav(GD) | Niranjan Singh          | 3383532X<br>JC-843538W  | Now | 06 Dec 2013 |
| **(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2013 without effect on pay and allowances)   |         |                         |                         |     |             |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Lakshmi Narayan         | 9417163L<br>JC-843543F  | Now | 06 Dec 2013 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Anil Kumar Singh        | 2675219A<br>JC-843545M  | Now | 03 Dec 2013 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Munna Singh             | 10181710F<br>JC-843546P | Now | 01 Dec 2013 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Indramani Prasad Misra  | 10181726M<br>JC-843547X | Now | 09 Dec 2013 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Satnam Singh            | 3383470H<br>JC-843551A  | Now | 06 Jan 2014 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Rajeshwar Singh         | 10314277A<br>JC-843552H | Now | 02 Dec 2013 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Avtar Singh             | 10197323W<br>JC-843553L | Now | 09 Dec 2013 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Gurdeep Singh           | 3383172M<br>JC-843554N  | Now | 09 Dec 2013 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Uvaraj Havaladar        | 10420369X<br>JC-843555W | Now | 15 Dec 2013 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Jasbir Singh            | 10479233L<br>JC-843556Y | Now | 23 Dec 2013 |
| ***                                                                                            | Hav(GD) | Abhay Singh Rathor      | 2675933A<br>JC-843557F  | Now | 16 Dec 2013 |
| ****(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances) |         |                         |                         |     |             |
| ****                                                                                           | Hav(GD) | V Chinnadurai           | 10165548L<br>JC-843561K | Now | 02 Jan 2014 |
| ****                                                                                           | Hav(GD) | Amrit Lal               | 10389421L<br>JC-843562M | Now | 01 Jan 2014 |
| ****                                                                                           | Hav(GD) | A John Arockia Das      | 10451930P<br>JC-843564X | Now | 01 Jan 2014 |
| ****                                                                                           | Hav(GD) | Chavan Shivaji Shrimant | 10119185N<br>JC-843565A | Now | 01 Jan 2014 |
| ****                                                                                           | Hav(GD) | Jawir Bali Dashrath     | 10118963F               | Now | 01 Jan 2014 |

|      |         |                   |                         |     |             |
|------|---------|-------------------|-------------------------|-----|-------------|
|      |         |                   | JC-843566H              |     |             |
| **** | Hav(GD) | Bhajan Singh      | 10197136X<br>JC-843567L | Now | 01 Jan 2014 |
| **** | Hav(GD) | Ramakant          | 10478527M<br>JC-843568N | Now | 03 Jan 2014 |
| **** | Hav(GD) | Nand Lal          | 10181652H<br>JC-843569W | Now | 01 Jan 2014 |
| **** | Hav(GD) | Anil Kumar Pandey | 10404898A<br>JC-843570L | Now | 01 Jan 2014 |
| **** | Hav(GD) | Nahar Singh       | 10404673X<br>JC-843571N | Now | 01 Jan 2014 |
| **** | Hav(GD) | Govind            | 10389289W<br>JC-843572W | Now | 01 Jan 2014 |
| **** | Hav(GD) | Matadin Pandey    | 10181449M<br>JC-843573Y | Now | 01 Jan 2014 |
| **** | Hav(GD) | K Gopala Krishnan | 10165463P<br>JC-843575K | Now | 01 Jan 2014 |
| **** | Hav(GD) | S Christi Raj     | 10451986X<br>JC-843577P | Now | 01 Jan 2014 |

\*\*\*\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances)

(To be Naib Subedar/Clk(SD))

|       |                 |                 |                        |     |             |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|-------------|
| ***** | Hav/<br>Clk(SD) | Balakrishnan AV | 8030266Y<br>JC-843558K | Now | 01 Jan 2014 |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|-------------|

\*\*\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Jan 2014 without effect on pay and allowances)

To be Naib Subedar (GD)

|   |     |             |                        |     |             |
|---|-----|-------------|------------------------|-----|-------------|
| * | Hav | Shiv Ram    | 8025673X<br>JC-843478M | Now | 01 Aug 2013 |
| * | Hav | Dalip Singh | 2878971L<br>JC-843483X | Now | 01 Aug 2013 |

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Aug 2013 without effect on pay and allowances)

|    |     |                      |                         |     |             |
|----|-----|----------------------|-------------------------|-----|-------------|
| ** | Hav | Malkit Singh         | 3383299P<br>JC-843496P  | Now | 01 Sep 2013 |
| ** | Hav | Dhan Kumar Thapa     | 10373698A<br>JC-843498A | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Kedar Singh          | 14900411L<br>JC-843499H | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Gire Kishor Yeshwant | 10118961W<br>JC-843500M | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Sumer Singh          | 2873679M<br>JC-843501P  | Now | 01 Sep 2013 |
| ** | Hav | Ranjodh Singh        | 3383253M<br>JC-843502X  | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Shyam Bahadur        | 10181481F               | Now | 02 Sep 2013 |

|    |     |                                  |                         |     |             |
|----|-----|----------------------------------|-------------------------|-----|-------------|
|    |     |                                  | JC-843503A              |     |             |
| ** | Hav | Gagan Singh                      | 10197268L<br>JC-843504H | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Laxmi Kant Misra                 | 10181735N<br>JC-843505L | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Randhir Singh                    | 2872658K<br>JC-843506N  | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Dalip Singh Bora                 | 13613235H<br>JC-843507W | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Sujan Singh                      | 3383382M<br>JC-843508Y  | Now | 05 Sep 2013 |
| ** | Hav | Rajwinder Singh                  | 3382512X<br>JC-843509F  | Now | 04 Sep 2013 |
| ** | Hav | Kempanna Niggappa Vani           | 10146403L<br>JC-843510W | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Kuldeep Singh                    | 3381960X<br>JC-843511Y  | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Basana Gouda Sharanappa<br>Gouda | 10420134L<br>JC-843512F | Now | 02 Sep 2013 |
| ** | Hav | Haridwar Singh                   | 10181388A<br>JC-843513K | Now | 02 Sep 2013 |

\*\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances)

|     |     |                        |                         |     |             |
|-----|-----|------------------------|-------------------------|-----|-------------|
| *** | Hav | Santosh Singh Gurung   | 8824023Y<br>JC-843520A  | Now | 28 Nov 2013 |
| *** | Hav | Anjan Kumar Das Sarkar | 10273906P<br>JC-843527K | Now | 02 Dec 2013 |
| *** | Hav | Ram Mehar Singh        | 2872709M<br>JC-843529P  | Now | 02 Dec 2013 |
| *** | Hav | Lakhi Ram              | 13611409Y<br>JC-843533X | Now | 28 Nov 2013 |

\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances)

|      |     |              |                         |     |             |
|------|-----|--------------|-------------------------|-----|-------------|
| **** | Hav | Lila Ram     | 14340631A<br>JC-843536L | Now | 29 Nov 2013 |
| **** | Hav | Fani Babu VS | 13677022W<br>JC-843540N | Now | 16 Nov 2013 |

\*\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Nov 2013 without effect on pay and allowances)

|      |     |                 |                        |     |             |
|------|-----|-----------------|------------------------|-----|-------------|
| **** | Hav | Harbhajan Singh | 3382868H<br>JC-843548A | Now | 02 Dec 2013 |
| **** | Hav | Ajaib Singh     | 3382873W<br>JC-843549H | Now | 01 Dec 2013 |
| **** | Hav | Kashmir Singh   | 3382716K<br>JC-843550X | Now | 02 Dec 2013 |

\*\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances)

## To be Naib Subedar/Clk(SD)

|       |                 |                  |                         |     |             |
|-------|-----------------|------------------|-------------------------|-----|-------------|
| ***** | Hav/<br>Clk(SD) | A Anbalagan      | 14330075F<br>JC-843493F | Now | 01 Sep 2013 |
| ***** | Hav/<br>Clk(SD) | Dharam Pal Singh | 2468277X<br>JC-843494K  | Now | 01 Sep 2013 |
| ***** | Hav/<br>Clk(SD) | Jaswinder Singh  | 10479684L<br>JC-843495M | Now | 01 Sep 2013 |

\*\*\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Sep 2013 without effect on pay and allowances)

|       |                 |                         |                        |     |             |
|-------|-----------------|-------------------------|------------------------|-----|-------------|
| ***** | Hav/<br>Clk(SD) | Md Faizur Rahman Laskar | 6916100W<br>JC-843514M | Now | 01 Oct 2013 |
| ***** | Hav/<br>Clk(SD) | Vijay Kumar Dubey       | 1063618K<br>JC-843515P | Now | 01 Oct 2013 |

## To be Naib Subedar/Clk

|       |                 |                   |                         |     |             |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------|
| ***** | Hav/<br>Clk(SD) | Bijay Kumar Nandy | 10374196K<br>JC-843517A | Now | 01 Oct 2013 |
|-------|-----------------|-------------------|-------------------------|-----|-------------|

\*\*\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Oct 2013 without effect on pay and allowances)

|       |                 |                 |                        |     |             |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|-------------|
| ***** | Hav/<br>Clk(SD) | Vijaya Kumar MP | 2578889X<br>JC-843542Y | Now | 03 Dec 2013 |
|-------|-----------------|-----------------|------------------------|-----|-------------|

\*\*\*\*\* (Gtd seniority in the rank of Nb Sub/Clk(SD) wef 01 Dec 2013 without effect on pay and allowances)

R. P. S. NEGI  
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में  
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014  
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,  
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014

[www.dop.nic.in](http://www.dop.nic.in)